



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21—दिसम्बर 27, 2013 (अग्रहायण 30, 1935)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21—DECEMBER 27, 2013 (AGRAHAYANA 30, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2013

परीक्षा नोटिस सं. 03/2014-एनडीए-I

(आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20.01.2014)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2014

(आयोग की वेबसाइट-www.upsc.gov.in)

फा.सं.7/2/2013-प.1(ख)-राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए 02 जनवरी, 2015 से शुरू होने वाले 133वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 95वां भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आई एन ए सी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 20 अप्रैल, 2014 को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय नौसेना अकादमी में भर्ती उम्मीदवारों को 4 वर्ष का बी.टेक. कोर्स करना होगा तथा रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के आधार पर नौसेना के कार्यपालक और तकनीकी विभाग में भर्ती का अवसर भी दिया जा सकता है।

आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों

की संख्या इस प्रकार होगी :--

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 320 (208 थल सेना के लिए, 42 नौसेना के लिए और 70 वायु सेना के लिए)

भारतीय नौसेना अकादमी 55
(10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)

योग 375

रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता

व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र :

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट-ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन “पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ” पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या
4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कोनिया,

उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, ज़ैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर के आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म दो जुलाई, 1995 से पहले न हुआ हो तथा पहली जुलाई, 1998 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए ‘मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र’ वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रति “महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066” को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में “नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, ‘सी’ स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011” को 05 दिसम्बर, 2014 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी। अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 05 दिसम्बर, 2014 तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबंधित किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2014 हेतु परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को रु. 100/- (रुपए एक सौ मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों/टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./ एन. सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

ध्यान दें-1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्यदिवस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। ‘नकद भुगतान प्रणाली’ का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 19.01.2014 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् 20.01.2014 को 23.59 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

ध्यान दें-2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त रहित आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ध्यान दें-3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

ध्यान दें-4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरन्त अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी-2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-2 : थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/ भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग

जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। (विशेष ध्यान दें : ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबद्ध प्रिंसीपलों से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस. एस. बी. परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

5. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार www.upsconline.nic.in वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी-1 : आवेदकों को केवल एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आर आई डी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आर आई डी (रजिस्ट्रेशन आई डी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आर आई डी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आर आई डी के लिए नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विशेष ध्यान दें--(क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों को छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कॉलेज/स्कूल के प्रिंसीपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार

आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाणपत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियाँ और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के जुलाई, 2014 में घोषित होने की संभावना है।

टिप्पणी-5 : जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाण-पत्र भर्ती निदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएंडआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे, जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्मांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेज़र या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

वह अपने को दण्ड-अभियोजना का शिकार बनाने के अतिरिक्त

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

और/या

- (ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है :

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

- (ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी, 2014 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात् लिंक निरुपयोज्य होगा।

7. यात्रा भत्ता :

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भारतीय सीमा के अंदर आरक्षण एवं स्लीपर प्रभारों सहित एसी-III टायर आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए के हकदार होंगे। जो उम्मीदवार समान प्रकार के कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे किसी परवर्ती अवसर के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे।

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश-प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

(iii) सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

(iv) यदि उम्मीदवार को किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश प्रमाण पत्र मिल जाए तो उसे आयोग को तुरंत सही ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोटिस में लाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आई डी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आई डी (आर आई डी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1) : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2) : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल; सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड (III), स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473 नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उम्मीदवारों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग-ऑन करना चाहिए :-

www.joinindianarmy.nic.in
www.nausena-bharti.nic.in
www.careerairforce.nic.in

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टर्स के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें या वेबसाइट को देखें :-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-(I), आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या www.joinindianarmy.nic.in

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ.आई. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/या ईमेल: officer-navy@nic.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए—वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081/7082 या www.careerairforce.nic.in

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु अह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार सितम्बर - अक्टूबर, 2014 के पहले सप्ताह में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

योग्यताक्रम सूची कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य संगत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in का अवलोकन करें।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के स्वनिर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना स्कंधों और भारतीय नौ सेना अकादमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाईलट एप्टिट्यूड परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में लागू पीएबीटी सेवा चयन बोर्ड से अर्हता प्राप्त उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी जिन्होंने वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी है उनकी योग्यता और इच्छा के आधार पर किया जाएगा।

दो चरणों की चयन प्रक्रिया

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्डों में प्रारंभ कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन केन्द्रों पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें इन प्रत्येक में से (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता

के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ 2 फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने ही जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के उम्मीदवारों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को अपनी इच्छानुसार पात्रता और वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी हो, पीएबीटी में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को इन शर्तों पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना, अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता, शारीरिक स्वास्थ्य और योग्यता/ सह-वरीयता के अनुसार होगा। वे उम्मीदवार जो एक से अधिक सेवाओं/ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेवा/ पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चुन लिए जाने पर, उनके नाम पर शेष सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूड के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिए तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक से मार्गदर्शक संकेत और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

मलय मुखोपाध्याय
उप सचिव

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :--

| विषय | कोड | अवधि | अधिकतम अंक |
|----------------------------------|-----|---------|------------|
| गणित | 01 | 2½ घंटे | 300 |
| सामान्य योग्यता परीक्षण | 02 | 2½ घंटे | 600 |
| कुल | | | 900 |
| सेवा चयन बोर्ड टेस्ट/साक्षात्कार | | | 900 |

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विविक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीज गणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-मारगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। समिश्र संख्याएं-आधार- भूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति :

आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केन्द्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी: आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता: यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निःशेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ, पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी :

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके।

पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान : (अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाईड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा प्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्न रूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव। संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण।

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनके गुप परीक्षण भी किए जाएंगे, जैसे गुप परिचर्चा, गुप योजना, बहिरंग गुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

उम्मीदवारों को शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं :--

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्टिया
- (ज) टांसिल
- (झ) वेरिकोसिल

नोट : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकरण होगा।

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे, वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि--

(क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल करना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/ अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी.) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक-थल सेना/वायु सेना के लिए

सारणी-I

| कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता) | वजन किलोग्राम में | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 16-17 वर्ष | 17-18 वर्ष | 18-19 वर्ष |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 152 | 42.5 | 44.0 | 45.0 |
| 155 | 43.5 | 45.3 | 47.0 |
| 157 | 45.0 | 47.0 | 48.0 |
| 160 | 46.5 | 48.0 | 49.0 |
| 162 | 48.0 | 50.0 | 51.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|------|------|
| 165 | 50.0 | 52.0 | 53.0 |
| 167 | 51.0 | 53.0 | 54.0 |
| 170 | 52.5 | 55.0 | 56.0 |
| 173 | 54.5 | 57.0 | 58.0 |
| 175 | 56.0 | 59.0 | 60.0 |
| 178 | 58.0 | 61.0 | 62.0 |
| 180 | 60.0 | 63.0 | 64.5 |
| 183 | 62.5 | 65.0 | 66.5 |

कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए

सारणी-II

| कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता) | वजन किलोग्राम में | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|
| | 16 वर्ष | 18 वर्ष | 20 वर्ष |
| 152 | 44 | 45 | 46 |
| 155 | 45 | 46 | 47 |
| 157 | 46 | 47 | 49 |
| 160 | 47 | 48 | 50 |
| 162 | 48 | 50 | 52 |
| 165 | 50 | 52 | 53 |
| 168 | 52 | 53 | 55 |
| 170 | 53 | 55 | 57 |
| 173 | 55 | 57 | 59 |
| 175 | 57 | 59 | 61 |
| 178 | 59 | 61 | 62 |
| 180 | 61 | 63 | 64 |
| 183 | 63 | 65 | 67 |

उपर्युक्त सारणी-I में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए ± 6 किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी. की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी.) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगा :--

| | न्यूनतम | अधिकतम |
|----------------|--------------|---------------|
| टांग की लंबाई | 99.00 सेंमी. | 120.00 सेंमी. |
| जांघ की लंबाई | -- | 64.00 सेंमी. |
| बैठे हुए लंबाई | 81.50 सेंमी. | 96.00 सेंमी. |

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेंमी. तक ऊंचाई में 2.65 सेंमी. (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेंमी. (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बढ़ोत्तरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेंमी. से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी. होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ड) हड्डियों या जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए।

मेरुदण्ड की स्थितियां

(च) मेरुदण्ड अथवा त्रिक-श्रेणिफलक-संधि संबंधी रोग या अभिघात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हों के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा। मेरुदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा कशेरूका चक्रिश्च भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्सकीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे। चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियां पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे :--

(i) मेरुदण्ड का कणिकालगुल्मीय रोग

(ii) संधिशोथ संरूप/कशेरूकासन्धिग्रह

— रुमेटॉइड सन्धिशोथ तथा संबद्ध विकार

— बद्ध कशेरूकासन्धिशोथ

— अस्थिसंधिशोथ, कशेरूकासन्धिग्रह तथा अपविकसित संधि रोग

— संधिहीन आभवात (यथा घूर्ण कफ की विक्षति, टेनिस कर्पूर, पुनरावर्ती कटिवेदना आदि)

— एस एल ई, त्वक्पेशी शोथ, बहुपेशीशोथ पर्विका वाहिकाशोथ सहित विविध विकार

- (iii) कशेरूकाग्रसर्पण/कशेरूकासन्धिग्रह
- (iv) कशेरूकाओं का सम्पीडन अस्थिभंग
- (v) शेयूरमैन रोग (कौमर कुब्जता)
- (vi) ग्रैव मेरुदण्ड की निर्बन्धित गतियों से संबद्ध होने पर ग्रैव अग्रकुब्जता की क्षति
- (vii) एक पार्श्वीय/द्विपार्श्वीय ग्रैव पर्शुका सहित प्रभाण्य तंत्रिका वैज्ञानिक या परिसंचरण कमी
- (viii) कॉब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता
- (ix) मज्जा केन्द्रक हिनयेशन
- (x) एक से अधिक स्तर पर श्मोर्ल पर्व की मौजूदगी
- (xi) शीर्षधर पश्चकपाल और शीर्षधर अक्षक विषमताएं
- (xii) ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरूका तथा/अथवा अपूर्ण रोध (संयुक्त) तथा ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण कशेरूका रोध
- (xiii) सभी स्तरों पर एकपार्श्वीय त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरूका भवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वीय अपूर्ण त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरूका भवन
- (xiv) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य असामान्यता।

(छ) हल्का कार्डफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(ज) दिखाई पड़ने वाले स्कोलियोसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो--संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(झ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएंगी :-

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्यूलोमेंट्स बीमारी
2. आर्थराइटिडीस/स्पोन्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15 डिग्री से अधिक हो। (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोसिस
5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलिससिस/स्पेण्डिलोलिसिस
6. एरनिएटिड न्यूक्लिअस, पलपोसस
7. कशेरूक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रैव पर्शुका

10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड की उपस्थिति
11. शीर्षधरानुकपाल (अटलांटो-आक्सीपीटल) तथा अटलांटो अक्षीय असंगतियां
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. एस.वी. 1 तथा एल.वी. 5 के इतर स्पाईनाबाइफिडा
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता।

(ज) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए।

(ट) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रव्यतामितिक परीक्षण किये जाएंगे। 250 एच. जैड, 8000 एच. जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितिक सुनने की कमी 20 डेसिबल से अधिक नहीं हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ठ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ड) जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ढ) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा, ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गए हों।

(ण) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(त) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(थ) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(द) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। मायोपिया 2.5 डी तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमि करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिप्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

| | |
|------------------------|----------|
| बिना चश्मे के असंशोधित | 6/6, 6/9 |
| चश्मे के साथ संशोधित | 6/6, 6/6 |
| निकट दृष्टि की सीमा | -0.75 |
| दूर दृष्टि की सीमा | +1.5 |
| दूरबीन दृष्टि | 111 |
| कलर प्रिसेप्शन की सीमा | 1 |

वायु सेना के लिए दृष्टि मानक :

प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य। वर्ण दृष्टि दोष सीपी-I हाइपरमेट्रोपिया : + 2.0 डी एस पी एच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता-शून्य नेत्र अपवर्तनमानपीय निकटदृष्टिता : -0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में एस्टिमेटिज्म : +0.75 डीसीवाई एल

(+ 2.0 के अंदर डी-मैक्स)

मैड्डोक्स रोड परीक्षण

- (i) 6 मीटर पर — एक्सोफोरिया - 6 प्रिज्म डी
 एसोफोरिया - 6 प्रिज्म डी
 हाइपर - 1 प्रिज्म डी
 हाइपो - 1 प्रिज्म डी
- (ii) 33 सेमी. पर — एक्सोफोरिया - 16 प्रिज्म डी
 एसोफोरिया - 6 प्रिज्म डी
 हाइपर - 1 प्रिज्म डी
 हाइपो - 1 प्रिज्म डी

हस्त -- त्रिविमदर्शी--सभी बीएसवी ग्रेड्स

अभिसरण - 10 सें. मी. तक के लिए

दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पार्श्वीय अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्ध

सीटू में रेडियल कॅरेटोयोमी, प्रकाश अपवर्तन कॅरेटोयोमी/लेजर

अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई कॅरेटोमिल्यूसिस (पी आर के/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं हैं।

आई ओ एल रोप सहित या उसके बिना मोतियाबिन्दु की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

द्विनेत्री दृष्टि--अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयाम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

(ध) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना से अस्वीकृत किया जा सकता है।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रूटीन ईसीजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

(क) 15 मिनट में 2.5 कि.मी. की तेज दौड़

(ख) उछल-कूद

(ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)

(घ) ठोढ़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)

(ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना।

परिशिष्ट-III

सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद वहन

करेंगे—सामान्यतः इन खर्चों को 400 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु. 400 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु. 400 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए रु. 400 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रतिमाह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/आश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है। यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे (411023) के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को अपने आगमन पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:—

| | रुपये |
|--|-----------|
| (क) प्रतिमाह 1500.00 रुपए की दर से पांच माह का पॉकेट भत्ता | 7,500.00 |
| (ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मर्दों के लिए | 31,300.00 |
| (ग) सेना समूह बीमा निधि | 4,250.00 |
| (घ) प्रथम सत्र के दौरान आनुषंगिक व्यय योग | 5,478.00 |
| | 48,528.00 |

यदि उम्मीदवार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिल जाती है तो उपर्युक्त उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी :—

| | रुपये |
|--|-----------|
| (क) प्रति माह 400.00 रुपए की दर से पांच माह के लिए पॉकेट भत्ता (सरकारी वित्तीय सहायता के अनुरूप) | 2,000.00 |
| (ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मर्दों के लिए | 13,935.00 |

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350 तथा रु. 500 प्र.मा. के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किंतु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा

रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल कैडिल फ्रेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह 360 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कॉलेज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, इस्लीमाला में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां : दो छात्रवृत्तियां 30 रु. प्रति मास की तथा 400 रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी है और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां : तीन छात्रवृत्तियां—एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

| राज्य सरकार | राशि | पात्रता |
|--|------|--|
| (9) पश्चिम बंगाल-- *आय निम्न, मध्य, उच्च प्रारंभिक एकमुश्त अनुदान प्रति सत्र छात्रवृत्ति रु. 5000/-, रु. 3,750/-, अथवा रु. 2500/- रु. 1800/-, रु. 1350/-, रु. 900/- *आय समूह सारणी निम्न--9000/- रुपए प्रति माह तक मध्य--9001/- रुपए से 18000 रुपए प्रति माह तक उच्च--18000/- रुपए प्रति माह से अधिक | | (i) कैंडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैंडेट और/ उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए/अथवा उनका स्थायी निवास स्थान पश्चिम बंगाल होना चाहिए। (ii) कैंडेट को मैरिट पर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाए भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है। |
| (10) गोवा--1000/- रुपए प्रति माह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, (अधिकतम 24 माह अथवा कोर्स की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपए का एकबारगी वर्दी भत्ता। | | (i) कैंडेट के माता-पिता/ अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपए प्रति माह (1,80,000/- रुपए प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित की आय सीमा 37,500/- रुपए प्रति माह (4,50,000/-) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति/ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों। |
| (11) नागालैण्ड-- 1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान | | नागालैण्ड राज्य का अधिवासी होना चाहिए। |
| (12) मणिपुर-- 1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान | | मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए। |
| (13) अरुणाचल प्रदेश-- छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह एकबारगी वर्दी भत्ता 12,000/- रुपए | | अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए। |
| (14) गुजरात--छात्रवृत्ति 6000/- रुपए प्रति वर्ष | | गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व सैनिक मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित/अधिवासी को। |
| (15) उत्तराखंड--जेब खर्च 250/- रुपए प्रति माह (एन डी ए कैंडेट के लिए) | | उत्तराखंड अधिवासी एन डी ए कैंडेट जेब खर्च कैंडेट के पिता/ अभिभावक (भूतपूर्व सैनिक/ विधवा) को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से भुगतान किया जाता है। |
| (16) पंजाब-- 1,00,000/- रुपए एकबारगी भुगतान | | पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए। |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| (17) फ्लाईंग ऑफिसर अनुज नांचल मेमोरियल स्कॉलरशिप | 2000/- रुपए (एकबारगी भुगतान) | छठे सत्र के द्वितीय सर्वतोमुखी सर्वश्रेष्ठ वायुसेना कैंडेट को। |
| (18) पायलट ऑफिसर गुरमीत सिंह बेदी मेमोरियल स्कॉलरशिप | 1500/- रुपए (एकबारगी भुगतान) | छठे सत्र के समापन समारोह के समय सर्वतोमुखी सर्वश्रेष्ठ वायुसेना कैंडेट को। |

(19) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैंडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैंडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैंडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(20) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 सज्जा भत्ता (कैंडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैंडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैंडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(21) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 और जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9, कर्नाटक राज्य के उन कैंडेटों को दी है जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480 रुपये प्रति वर्ष है। रु. 480 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रति सत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(22) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैंडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैंडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(23) फ्लाईंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैंडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैंडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैंडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(24) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता—
महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों के, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

| | |
|-------------------------------------|--|
| भूतपूर्व अधिकारी | : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत। |
| भूतपूर्व जूनियर कमीशन | : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल प्राप्त अधिकारी जेब खर्च का 75 प्रतिशत। |
| अन्य रैंकों के भूतपूर्व सैन्य कर्मी | : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 100 प्रतिशत। |

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाण पत्र भी भेजने चाहिए जिनमें जेब खर्च की दरें दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदक के माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे-411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:—

- (क) अंग्रेजी
- (ख) गणित
- (ग) विज्ञान
- (घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/ बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक

दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौसेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमैन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमैन कैडेटों को उनके शेप-वन (SHAPE-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु नियत वृत्तिका

जेन्टलमैन कैडेट, सेवा अकादमियों, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 21,000/- रु. प्रतिमाह (15,600/- रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा 5,400/- रुपये का ग्रेड पे) की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे।

(ii) वेतन

| | |
|-------------------------------|---|
| (क) रैंक | पे बैंड (रु.) |
| लेफ्टिनेंट से मेजर | 15,600—39,100/- (पे बैंड-3) |
| लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल | 37,400—67,000/- (पे बैंड-4) |
| लेफ्टिनेंट जनरल | एचएजी मान* 67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)—79,000/- |
| | एचएजी+मान 75,500/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)—80,000/- |

(*लेफ्टिनेंट जनरल की कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी)

वी सी ओ ए एस/सेना कमांडर/ 80,000/- (नियत)

लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)

सी ओ ए एस 90,000/- (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :--

| | |
|------------------|--------------|
| लेफ्टिनेंट | 5,400/- रु. |
| कैप्टन | 6,100/- रु. |
| मेजर | 6,600/- रु. |
| लेफ्टिनेंट कर्नल | 8,000/- रु. |
| कर्नल | 8,700/- रु. |
| ब्रिगेडियर | 8,900/- रु. |
| मेजर जनरल | 10,000/- रु. |

(ग) लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6,000/- रुपये प्रति माह की एक नियत धनराशि भी देय है।

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों की उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- या 20,000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय हैं :

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक--500/- रु. प्रतिमाह
- (ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I--400/- रु. प्रतिमाह
- (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II--280/- रु. प्रतिमाह
- (iv) मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--400/- रु. प्रतिमाह
- (v) ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--280/- रु. प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:--

| |
|-------------------------------------|
| (क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर 10,500/- रु. |
| (ख) मेजर से कर्नल 14,000/- रु. |
| (ग) कैप्टन 11,000/- रु. |
| (घ) लेफ्टिनेंट 9,000/- रु. |

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) 400/- रु. प्रति माह की दर से किट रख-रखाव भत्ता।

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6,780/- रु. से 8,400/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4,200/- रु. से 5,200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1,600/- रु. से 2,000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9,000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1,060/- रु. प्रतिमाह से 11,200/- रु. प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ड) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए 14,000/- रु. की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए 3,000/- रुपये।

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता 3,200/- रुपये + उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 1,600/- रुपये + उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट भत्तों के मामले में, इन भत्तों की दरों को 25% से आगे बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 50% से ऊपर चला गया है।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा राशि एक अनिवार्य सामूहिक योजना है जो कैडेटों, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नौसेना और वायुसेना कैडेट शामिल हैं, द्वारा कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक तीन वर्ष के लिए एक बार में रु. 4,250/- की अग्रिम एकमुश्त राशि की अदायगी पर रु. 8 लाख के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पदावनति के मामले में, ऐसा होते ही प्रत्येक पदावनति अवधि के लिए रु. 770/- की अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान करना होगा। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से बाहर कर दिया जाता है उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 4 लाख रु. जो कि 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 80,000/- रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण बाहर किए जाने वाले कैडेटों को 50,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण अशक्त ठहराए जाने पर बाहर किए गए कैडेटों को 1 लाख रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) बीमा : भारतीय सैनिक अकादमी में वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन कैडेटों का नियमित अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य एजीआई योजना के अनुसार पहली अप्रैल, 2011 से 40 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर कर दिया जाता है। उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 20 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा। जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 4 लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है और तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50,000/- रु. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. प्रोन्नति के अवसर :

| क्रम सं. | सेना | नौसेना | वायु सेना | मूल पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------|---|
| (क) | लेफ्टिनेंट | सब लेफ्टिनेंट | फ्लाइट ऑफिसर | कमीशन प्राप्त होने पर |
| (ख) | कैप्टन | लेफ्टिनेंट | फ्लाइट लेफ्टिनेंट | 02 वर्ष |
| (ग) | मेजर | लेफ्टिनेंट कमांडर | स्क्वॉड्रन लीडर | 06 वर्ष |
| (घ) | लेफ्टिनेंट कर्नल | कमांडर | विंग कमांडर | 13 वर्ष |
| (ङ) | कर्नल (चयन) | कैप्टन (चयन) | ग्रुप कैप्टन (चयन) | 15 वर्ष |
| (च) | कर्नल (समयमान) | कैप्टन (समयमान) | ग्रुप कैप्टन (समयमान) | 26 वर्ष |
| (छ) | ब्रिगेडियर | कोमोडोर | एअर कोमोडोर | चयन के आधार पर |
| (ज) | मेजर जनरल | रियर एडमिरल | एअर वाइस मार्शल | चयन के आधार पर |
| (झ) | लेफ्टिनेंट जनरल | वाइस एडमिरल | एअर मार्शल | चयन के आधार पर |
| (ञ) | जनरल | एडमिरल | एअर चीफ मार्शल | चयन के आधार पर |

14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

मलय मुखोपाध्याय
उप सचिव

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

सं. ए-4/15/2010--प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा, निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क निरीक्षकों को वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से तीन

वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक प्रवर्तन निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

| क्र. सं. | नाम | तैनाती की तारीख |
|----------|------------------------|-----------------|
| 1. | श्री रोहिताश पाण्डेय | 07.10.2013 |
| 2. | श्री एस. श्रीनिवास राव | 14.10.2013 |

एम. जी. अत्री
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-4/15/2010--प्रवर्तन निदेशक, एतद्वारा, निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क तथा सेवा-कर अधीक्षकों को वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक प्रवर्तन निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं :--

| क्र. सं. | नाम | तैनाती की तारीख |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 1. | श्री बिनोद कुमार सिंह | 05.08.2013 |
| 2. | श्री जे. एक्स टेंस | 23.08.2013 |

एम. जी. अत्री
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2013

सं. डी.एक 15/2009-13-कार्मिक-डी.ए.-आठ--गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-I-12014/21/2012-एनसीबी-दो दिनांक 05.11.2013 के तहत श्री बी. आर. मीणा, (इरला-4450), द्वितीय कमान अधिकारी, 38 बटा. के.रि.पु.बल, का Narcotics Control Bureau, New Delhi में Deputy Director के पद पर 04 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन हो जाने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ दिनांक 18.11.2013 (अपराहन) से महानिदेशक, Narcotics Control Bureau, New Delhi के निपटान (disposal) पर रहेगी।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.एक 1/2013-कार्मिक-एम.ओ.--गृह मंत्रालय के दिनांक 05.09.2013 के यू.ओ. सं. आई-45024/10/2013.कार्मिक-दो के अनुसार डॉ. (श्रीमती) मीनू दलिया, चिकित्सा अधिकारी (ईरला संख्या-9259), 88 बटा. के.रि.पु.बल, का 03 वर्ष के लिए के.रि.पु.बल से बी.एस.एफ. में अंतर बल प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 11.11.2013 (अपराहन) से कार्यमुक्त किया गया एवं उक्त अधिकारी की सेवाएं उसी

दिन अर्थात् दिनांक 11.11.2013 (अपराह्न) से महानिदेशालय, बी.एस. एफ. के निपटन (disposal) पर रहेगी।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

सं. प्रशासन-I-भा.ले.वि.-गृप 'ख'/1105--दिनांक 19.11.2013 के का.आ.ग.स. 624 में दी गई पदोन्नति को स्विकार करने के परिणामस्वरूप श्रीमती बन्दना नन्द, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 19.11.2013 (पूर्वाह्न) से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं उनके वरीयता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (गृप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी.-2) रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर महालेखाकार से सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

चूँकि उन्हें एम.ए.सी.पी. योजना 2009 के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिया गया है, अतः वेतन नियतन का लाभ नहीं मिलेगा।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

का.आ.ग. सं. 624 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

एस. बी. पाटील
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का
कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

सं. प्रशा. (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग VIII/119--ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/2485 दिनांक 21.11.2013 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 979 दिनांक 21.11.2013 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :--

| क्र. सं. | नाम | लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | (श्री/सर्वश्री) | |
| 1. | श्रीमती स्निग्धा महान्ति | 21.11.2013 पूर्वाह्न |
| 2. | धीरज देबराज साहु | 21.11.2013 पूर्वाह्न |
| 3. | कपिलाश प्रधान | 21.11.2013 पूर्वाह्न |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---------------------|----------------------|
| | (श्री/सर्वश्री) | |
| 4. | राजेन्द्र कुमार दास | 21.11.2013 पूर्वाह्न |
| 5. | प्रताप केशरी बर्मा | 21.11.2013 पूर्वाह्न |
| 6. | पुरुषोत्तम सुबुद्धी | 22.11.2013 अपराह्न |
| 7. | राम नारायण राय | 21.11.2013 पूर्वाह्न |

दीपक महान्ति
लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

सं. प्रशा./130/रा. अधि0/2013--निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है :--

| क्र. सं. | नाम | कार्यालय जहा वर्तमान में कार्यरत है | पदोन्नति की तिथि |
|----------|--------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (सर्वश्री/श्रीमती) | | |
| 1. | डी. दामोदरन | उप निदेशक लेखापरीक्षा (आ.नि.), आवडी | 01.05.2012 |
| 2. | विप्लव दे | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आ.नि.), कोलकाता | 06.06.2012 |
| 3. | सोम प्रकाश मिश्रा | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद | 22.06.2012 |
| 4. | शशी भूषण नवीन | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पू. क. पटना | 22.06.2012 |
| 5. | समर कान्त मिश्रा | उप निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), देहरादून | 02.07.2012 |
| 6. | बिप्लव सरकार | लेखापरीक्षा अधिकारी (थल सेना), कोलकाता | 17.07.2012 |
| 7. | घनश्याम | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद | 02.07.2012 |
| 8. | विजय कुमार सांगर | महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 01.08.2012 |
| 9. | शेखर कुमार शर्मा | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली | 01.08.2012 |
| 10. | सन्तन दिनीज | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली छावनी | 20.09.2012 |
| 11. | एस. कला | महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 01.11.2012 |
| 12. | पी. के. अग्रवाल | उप निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), देहरादून | 01.11.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|-----------------------|--|------------|
| (सर्वश्री/श्रीमती) | | | |
| 13. | पी. भूपेन्द्रन | लेखापरीक्षा अधिकारी (नौसेना), कोची | 03.12.2012 |
| 14. | सुचिता रमेश बलवानी | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौसेना), मुम्बई | 01.01.2013 |
| 15. | डी. एन. राव | उप निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), बंगलूर | 01.01.2013 |
| 16. | शिव मंगल | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पू. क. पटना | 01.01.2013 |
| 17. | आर. सी. मैथ्यूस | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली कैंट | 01.01.2013 |
| 18. | शुशान्त सरकार | लेखापरीक्षा अधिकारी (थल सेना), कोलकाता | 01.02.2013 |
| 19. | रामफल | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), नई दिल्ली | 04.02.2013 |
| 20. | विध्या लक्ष्मी नारायण | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली कैंट | 01.02.2013 |
| 21. | प्रशान्त कुमार दास | लेखापरीक्षा अधिकारी (थल सेना), कोलकाता | 01.03.2013 |
| 22. | जगदीश राजन | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), नई दिल्ली | 28.03.2013 |

सचिन कपूर
उप निदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

सं. प्रशा./130/रा. अधि0/2013--निम्नलिखित प्रत्यक्ष नियुक्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के नामों के आगे दर्शायी गई तिथि, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में इस कार्यालय में अगले आदेशों तक स्थायी (कन्फर्म) किया जाता है :--

| क्र. सं. | नाम | कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है | स.ले.प.अ. की पद पर पुष्टि की तिथि |
|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (सर्वश्री/श्रीमती) | | | |
| 1. | राहुल गौर | निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), नई दिल्ली | 31.08.2011 |
| 2. | उज्जवल बक्शी | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पू. क. पटना | 31.08.2011 |
| 3. | विनोद कुमार गौर | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (औ.फै.), कोलकाता | 31.08.2011 |
| 4. | आशीष कुमार शुक्ला | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), मुम्बई | 31.08.2011 |
| 5. | महेश कुमार | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), मुम्बई | 31.08.2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|--------------------|--|------------|
| (सर्वश्री/श्रीमती) | | | |
| 6. | प्रदीप कुमार | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 31.08.2011 |
| 7. | प्रवीण कुमार | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 31.08.2011 |
| 8. | शिव कुमार झा | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 31.08.2011 |
| 9. | श्रवण कुमार ठाकुर | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पू. क. पटना | 18.03.2012 |
| 10. | देवारघा भट्टाचार्य | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (औ.फै.), कोलकाता | 18.03.2012 |
| 11. | कैलाश कुमार माझी | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), मुम्बई | 18.03.2012 |
| 12. | अभिषेक सिंह कुशवाह | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 18.03.2012 |
| 13. | राजकमल | उप निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), देहरादून | 13.08.2012 |
| 14. | विनय पाल | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), नई दिल्ली | 31.08.2012 |
| 15. | रोहित कुमार | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 01.09.2012 |
| 16. | प्रवीण कुमार | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), मुम्बई | 27.09.2012 |
| 17. | प्रिन्स कुमार | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), मुम्बई | 02.11.2012 |
| 18. | मानस सरकार | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (औ.फै.), कोलकाता | 10.11.2012 |
| 19. | अमर गुरिया | निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), नई दिल्ली | 03.03.2013 |

सचिन कपूर
उप निदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

सं. प्रशा./130/रा. अधि./2013--निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/निजी सहायक/कनिष्ठ हिन्दी अधिकारियों को उनके सामने दर्शायी तिथि, से अगले आदेशों तक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है :--

| क्र. सं. | नाम | कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है | पदोन्नति की तिथि |
|--------------------|------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (सर्वश्री/श्रीमती) | | | |
| 1. | ई.एस. जैकब | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा रक्षा सेवाएं, पूणे | 24.04.2012 |
| 2. | मनोज कुमार | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 01.11.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------|---|------------|
| | (सर्वश्री/श्रीमती) | | |
| 3. | मोहन सिंह | प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, (वायु सेना), नई दिल्ली | 01.11.2012 |
| 4. | विरेन्द्र कुमार | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 01.11.2012 |
| 5. | प्रदीप कुमार भारद्वाज | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली कैंट | 01.11.2012 |
| 6. | विपुल शर्मा | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, (औ.फै.) कानपुर | 01.11.2012 |
| 7. | अनिल कुमार | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ कैंट | 06.11.2012 |
| 8. | रजनी बाला | महा निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली | 09.04.2013 |
| 9. | ओंशी चौहान | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली कैंट | 09.04.2013 |
| 10. | भागवती मारटोलिया | उप निदेशक लेखापरीक्षा, (वायु सेना), देहरादून | 09.04.2013 |
| 11. | सुनील लाल | लेखापरीक्षा अधिकारी, (थल सेना), कोलकाता | 12.04.2013 |
| 12. | शिबु हंसदा | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पू.क. पटना | 29.04.2013 |
| 13. | रघबीर सिंह | उप निदेशक लेखापरीक्षा, (वायु सेना), देहरादून | 01.05.2013 |
| 14. | हर्ष थपलियाल | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चण्डीगढ़ | 09.05.2013 |
| 15. | आर.के. राजहंस | प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, (नौ सेना), मुंबई | 13.05.2013 |
| 16. | दिलीप कुमार | उप निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पू.क. पटना | 13.05.2013 |

सचिन कपूर

उप निदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
मुंबई-400085, दिनांक 14 नवम्बर 2013

सं. पीडी/9(4)/2013-भर्ती-IV/13074--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं :-

| क्र. सं. | नाम | नियुक्ति पद | वेतनमान (रु.) | नियुक्ति तिथि |
|----------|--------------------------------|----------------------|---|---------------|
| 1. | श्री अमित कुमार राघवेंद्र सिंह | तकनीकी अधिकारी-डी | 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड पे) (पूर्वाह) | 14.10.2013 |
| 2. | डॉ. एम. थो | वैज्ञानिक अधिकारी-डी | 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड पे) (पूर्वाह) | 16.09.2013 |

शैलजा प्रकासम

उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 26 नवम्बर 2013

सं. 21/11/(2)/2012-सीसीएस/14640--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (जेएंडके : 2005) के श्री एम. राजु को दिनांक 30.10.2013 की पूर्वाह से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम में आंतरिक वित्त सलाहकार (पीबी-3 : रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के रूप में प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्त करते हैं।

स्वाति पाण्डेय
निदेशक (काडर)

सं. 21/11/(2)/2012-सीसीएस/14642--इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई की वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्रीमती पुष्पम्मा जार्ज (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप उनकी सरकारी सेवा दिनांक 19.08.2013 (पूर्वाह) से समाप्त मानी जाएगी।

स्वाति पाण्डेय
निदेशक (काडर)

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

सं. आरआरकेट/प्रशा./भर्ती-902/1859--राष्ट्रपति, एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों को उनकी प्रविष्टि ग्रेड में उनके नाम के सम्मुख लिखित दिनांक की पूर्वाह से स्थाई रूप से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर में नियुक्त करते हैं :-

| क्र.सं. | सं.सं.सं. | नाम | वर्तमान पद | स्थाईकरण दिनांक |
|---------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1789 | श्री थोंडापु शिवानंद रेड्डी | वै.अ./डी | 01.09.2011 |
| 2. | 1793 | श्री देबाशीष सिंहमहापात्र | वै.अ./सी | 01.09.2011 |
| 3. | 1831 | श्रीमती उर्मिला सिंह | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 4. | 1832 | कु. रंजना राठौर | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 5. | 1833 | कु. रिकी ढींगरा | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 6. | 1834 | श्री विनीत कुमार द्विवेदी | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 7. | 1835 | श्री सुधीर कुमार | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 8. | 1836 | श्री पंकज कुमार कुशवाहा | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 9. | 1839 | श्री रजनीश कुमार | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 10. | 1840 | श्री अरविंद सिंह पडियार | वै.अ./सी | 01.09.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------|----------------------------|----------|------------|
| 11. | 1841 | श्री अरिहंत कुमार जैन | वै.अ./सी | 01.09.2012 |
| 12. | 1849 | श्री विनोद कुमार मौर्या | वै.अ./सी | 03.10.2012 |
| 13. | 1854 | डॉ. आशीष कुमार खण्डेलवाल | वै.अ./डी | 29.09.2012 |
| 14. | 1887 | डॉ. सुमन बागची | वै.अ./डी | 01.11.2012 |
| 15. | 1889 | श्री किरण बराईक | त.अ./सी | 14.03.2013 |
| 16. | 1899 | श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा | वै.अ./सी | 20.04.2013 |
| 17. | 1910 | श्री तीर्थ मंडल | वै.अ./सी | 01.08.2013 |
| 18. | 1911 | श्री चन्द्रशेखर घोष | वै.अ./सी | 01.08.2013 |
| 19. | 1912 | श्री अभिषेक चटर्जी | वै.अ./सी | 01.08.2013 |
| 20. | 1913 | कु. सुष्मिता भारतीय | वै.अ./सी | 01.08.2013 |
| 21. | 1915 | श्री मुकेश कुमार पाल | वै.अ./सी | 01.08.2013 |
| 22. | 1916 | श्री जितेन्द्र सिंह | वै.अ./सी | 01.08.2013 |
| 23. | 1917 | कु. पुजा पठेजा | वै.अ./सी | 01.08.2013 |

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के
विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

सं. कंर/दिल्ली/560(5)/एफटीई/2011/8312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 229013 | मैसर्स एजिलोसिटी प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 010632 | मैसर्स अखिल चिट एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 231859 | मैसर्स एपस्पार्क मोबाइल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 113637 | मैसर्स बेले मोमो होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 204887 | मैसर्स ब्रेस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 204885 | मैसर्स कालाडियम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 233699 | मैसर्स डी. एम्ब्रोजियो स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|--|
| 8. | 053378 | मैसर्स एनर्जी एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 170039 | मैसर्स फास्ट कालनेट प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 136937 | मैसर्स गोविन्दम एप्रेलस प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 233249 | मैसर्स ग्रीनमिच टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 100946 | मैसर्स हान-यिन टूर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 163543 | मैसर्स इन्फो एस्योर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 159149 | मैसर्स जैपमीट हालिडेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 161851 | मैसर्स केनर्म कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 134521 | मैसर्स कुनजर मर्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 210374 | मैसर्स क्वासिर रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 201077 | मैसर्स लिवलीहुड इक्युटी एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 154055 | मैसर्स आलम्पस इफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 200631 | मैसर्स पी.वी. मर्केन्डाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 168600 | मैसर्स प्रोपगुरू रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 164105 | मैसर्स स्कायर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 166267 | मैसर्स क्विक टेक्सफेब प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 075347 | मैसर्स सम्पूर्ण कम्प्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 128820 | मैसर्स स्मिथ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 197036 | मैसर्स स्मूथ हॉलिडेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 210344 | मैसर्स तीर्थापादया बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 141727 | मैसर्स टचस्टोन इमेज्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 153840 | मैसर्स उदय मीडिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 135178 | मैसर्स वादो इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 060082 | मैसर्स वाईल्ड लाईफ एडवेन्चर टूर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के
विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

सं. कंर/दिल्ली/560(5)/एफटीई/2011/8312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|--|
| 1. | 037609 | मैसर्स प्रिया एगरिको केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 181121 | मैसर्स जयदेव इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 038436 | मैसर्स स्पेसिलएटी कन्सल्टिंग एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 196421 | मैसर्स गोत फ्रेश फार्मस प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 209660 | मैसर्स लाईव इन्ट्रोक्टिव प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 221229 | मैसर्स स्ट्रैमार्क मीडिया एण्ड ब्रोडकास्ट प्राईवेट लिमिटेड |

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के
विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

सं. कर/दिल्ली/560(5)/एफटीई/2011/8312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|--|
| 1. | 204951 | मैसर्स आकार प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 219874 | मैसर्स अदवैता एचआर कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 186963 | मैसर्स अष्टांग अरोग्यशाला प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 228661 | मैसर्स एक्सप्लोर सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 209099 | मैसर्स गिगंते डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 231253 | मैसर्स कनिष्का गुड्स कैरियर प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 217206 | मैसर्स कर्मा इंफ्रा सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 174683 | मैसर्स रायलपोलो स्पा एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 135941 | मैसर्स आरएस न्यूजप्रिन्ट्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 096921 | मैसर्स सैन्ड्स स्पोर्ट्स एण्ड लेजर प्राईवेट लिमिटेड |

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के
विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

सं. कर/560(3)/स्यो मोटो/3--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|---|
| 1. | 05122 | मैसर्स हिमाचल खण्ड उद्योग प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 20113 | मैसर्स रोमैक्स मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 20186 | मैसर्स सत्यम शिवम् एग्रो गोल्ड लिमिटेड |
| 4. | 20203 | मैसर्स रूवीमार्इन चिट्स कम्पनी लिमिटेड |
| 5. | 20210 | मैसर्स ग्रीन इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड |
| 6. | 20414 | मैसर्स हिमाचल ऑयल एण्ड फैंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 20480 | मैसर्स मल्टीरिलेशन चिट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 20514 | मैसर्स इन्का मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 20536 | मैसर्स दिगपाल फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 20537 | मैसर्स गाल्डनटाईगर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 20719 | मैसर्स हिमवैली बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 21085 | मैसर्स मौरल एग्रोटेच इण्डिया लिमिटेड |
| 13. | 21125 | मैसर्स भगत एग्रो फोनवेस्ट लिमिटेड |
| 14. | 21176 | मैसर्स दुर्गा कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 21207 | मैसर्स अलपाईन ओवरसिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 31364 | मैसर्स घर पावर प्राईवेट लिमिटेड |

राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के
विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2013

सं. आरओसी/560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|---|
| 1. | 31651 | मैसर्स जी टैल कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 31655 | मैसर्स बिट-डी नेट कॉम प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 22287 | मैसर्स आई. एस. गिल मार्किटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 19271 | मैसर्स स्टारलाइन इम्पैक्स (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 32455 | मैसर्स वेलकम हाऊस होल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 25116 | मैसर्स परफार्मेंस कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 30208 | मैसर्स ग्रीन कारपोरेट गार्डन लिमिटेड |
| 8. | 10097 | मैसर्स आरबी इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 32436 | मैसर्स कन्सोर्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 37509 | मैसर्स फिनप इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 31989 | मैसर्स एजुकेट स्टडी कन्सलटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 32532 | मैसर्स अंचित एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 16149 | मैसर्स समंजस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 35217 | मैसर्स आर. जी. होलीडे एडवेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 33088 | मैसर्स रूबेल मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 32996 | मैसर्स नायरोकम इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 11795 | मैसर्स दौआवा एयर ट्रांस प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 29845 | मैसर्स आई. एम. रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 27617 | मैसर्स इशान कन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड |

राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब एण्ड चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

सं. आरओसी/560(5)/2013/921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|--|
| 1. | 15-12883 | मैसर्स दीपा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 15-12884 | मैसर्स साई इन्फाहोम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 15-12887 | मैसर्स स्टारफरचुन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 15-12888 | मैसर्स कलिंग इन्श्योरेन्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 15-12890 | मैसर्स मामा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 15-12891 | मैसर्स पूजा मल्टी बिजनेस प्रोमोशन एण्ड सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 15-12892 | मैसर्स जैकब एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 15-12899 | मैसर्स श्री साई कन्टेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 15-12905 | मैसर्स 3पी सोल्युशन्स (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 15-12906 | मैसर्स कल्याणी रूरल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 15-12916 | मैसर्स कान्सु बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 15-12917 | मैसर्स कान्सु एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 15-12918 | मैसर्स कुअरिया फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 15-12923 | मैसर्स आरगेव कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 15-12715 | मैसर्स ओ एस एल कारगोवेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 15-09672 | मैसर्स नेक्सटपार्ट मीडिया एण्ड पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 15-10098 | मैसर्स एस एडवेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 15-15732 | मैसर्स तवांग टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड |

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
ओड़िशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 7 नवम्बर 2013

सं. आरओसी/(5)/2013/942--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|---|
| 1. | 15-12926 | मैसर्स ब्लेस टेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 15-12928 | मैसर्स सर्वोदय प्रोटेक्शन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 15-12931 | मैसर्स एमबेस्ट इन्फोसोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 15-12934 | मैसर्स श्रीभुम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 15-12937 | मैसर्स पाउण्ड फुड प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 15-12939 | मैसर्स टेक्नोफिल सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 15-12942 | मैसर्स आपेक्स एसेट मैनेजमेंट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 15-12946 | मैसर्स अमृतधारा एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 15-12953 | मैसर्स ओम साईराम रीयल इस्टेट एण्ड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 15-12956 | मैसर्स अक्षत प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 15-12957 | मैसर्स ए ए इवेन्ट एण्ड एन्टरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 15-12958 | मैसर्स शुलिन टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 15-10828 | मैसर्स सी एन पॉवर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 15-13044 | मैसर्स कोस्टल एग्रीगेट प्राईवेट लिमिटेड |

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 25 नवम्बर 2013

सं. आरओसी/(3)/2013/1082--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|--|
| 1. | 15-09994 | मैसर्स अंकिता स्ट्रीप्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 15-12055 | मैसर्स अक्षयधारा कर्मशियल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 15-12197 | मैसर्स पेपर मिन्ट न्यूज एण्ड मीडिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 15-13153 | मैसर्स पीपुल सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 15-13155 | मैसर्स त्रिसा कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 15-13157 | मैसर्स जयसाई क्रिष्णा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 15-13161 | मैसर्स अरुपमा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 15-13163 | मैसर्स सुपीरियर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 15-13166 | मैसर्स हीलसाइड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 15-13167 | मैसर्स मारना वुरु ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 15-13170 | मैसर्स एरीज इन्फ्राटेक (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 15-13173 | मैसर्स ओडिसिस इन्फ्रा-डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 15-13174 | मैसर्स केदारगौरी रियलएस्टेट्स एण्ड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 15-13176 | मैसर्स एसेन होम्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 15-13177 | मैसर्स लाईफ ड्रॉप्स फुड्स एण्ड बेवरेज्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 15-13178 | मैसर्स धनलक्ष्मी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 15-13179 | मैसर्स सुचना सम्पद इन्फोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 15-13181 | मैसर्स ओम परिवार एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 15-13186 | मैसर्स आदीटेक इन्फो सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 15-13187 | मैसर्स कालेप्सो इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 15-13188 | मैसर्स देभना इन्फ्रा एण्ड रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 15-13391 | मैसर्स ब्लोसम्स इन्फ्रा डवलपर प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 15-13394 | मैसर्स यूनोक्स सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के
विषय में

कटक-753014, दिनांक 27 नवम्बर 2013

सं. आरओसी/(5)/2013/921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी संख्या | कम्पनी का नाम |
|----------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15-13052 | मैसर्स एसपी रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 15-13054 | मैसर्स ब्ल्यू क्रॉस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 15-13058 | मैसर्स नीना आईटी एण्ड हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 15-13060 | मैसर्स बी. पी. निर्माण प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 15-13063 | मैसर्स वाइओईजार्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|--|
| 6. | 15-13068 | मैसर्स आजुरियन इन्फोजेन प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 15-13077 | मैसर्स कलिंग टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 15-13082 | मैसर्स यूनाईटेड गोल्डन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 15-13089 | मैसर्स ज्योती प्रकाश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 15-13094 | मैसर्स ग्रीन ऑरचिड इन्फ्राप्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 15-13095 | मैसर्स टाइटन एग्रियन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 15-13096 | मैसर्स टेक्मो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 15-13097 | मैसर्स सार्थक इन्डिया कमट्रेड लिमिटेड |
| 14. | 15-13100 | मैसर्स ज्योति विजन इन्टरनेशनल लिमिटेड |
| 15. | 15-03678 | मैसर्स रोलेक्स बिल्डर्स एण्ड स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड |

सी. के. दास
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 21st December, 2013

Examination Notice No. 03/2014-NDA-I

(Last Date for Submission of Applications : 20.01.2014)

NATIONAL DEFENCE ACADEMY &
NAVAL ACADEMY EXAMINATION (I), 2014(Commission's Website www.upsc.gov.in)

F. No. 7/2/2013 E.I (B)—An Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 20th April, 2014, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 133rd Course, and for the 95th Indian Naval Academy Course (INAC) commencing from 2nd January, 2015. The candidates Joining Indian Naval Academy would undergo 4 years B. Tech Course and would be given an opportunity to join Executive and Technical Branches of the Navy subject to availability of vacancies.

The date of holding the examination as mentioned above is liable to be changed at the discretion of the Commission.

The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be as under :—

| | |
|--|--|
| National Defence Academy | 320 (208 for Army, 42 for Navy and 70 for Air Force) |
| Naval Academy (10+2 Cadet Entry Scheme) | 55 |
| Total | <u>375</u> |

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in the Online Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference [1 to 4]. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.

2. CENTRES OF EXAMINATION :

The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwad, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

Applicants should note that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each of the centres except Chennai, Delhi, Dispur, Kolkata and Nagpur. Allotment of Centres will be on the first-apply-first-allot basis and once the capacity of a particular centre is attained, the same will be frozen. Applicants, who cannot get a centre of their choice due to ceiling, will be required to choose a Centre from the remaining ones. Applicants are, thus, advised that they may apply early so that they could get a Centre of their choice.

N.B. : Notwithstanding the aforesaid provision, Commission reserve the right to change the Centres at their discretion if the situation demands.

Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination. Candidates should note that no request for change of centre will be granted.

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

Only unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1995 and not later than 1st July, 1998 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in the respective column of the Online Application Form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent Examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4 : Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

(c) Educational Qualifications :

(i) For Army Wing of National Defence Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 Cadet Entry Scheme at the Indian Naval Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and Mathematics conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward duly attested Photocopies to 'Directorate General of Recruiting, Army HQ, West Block.III, R.K. Puram, New Delhi-110066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR, OI&R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011' by 5th December, 2014 failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 1 : Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

NOTE 2 : Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (i.e. 5th December, 2014) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE 3 : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE 4 : Those candidates who have failed INSB/PABT earlier are not eligible for Air Force.

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2014 as per guidelines given in Appendix-II.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

4. FEE :

Candidates (excepting SC/ST candidates/Sons of JCOs/NCOs/ORs specified in Note 2 below who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) either by depositing the money in any Branch of SBI by cash, or by using net banking facility of State Bank of India/State Bank of Bikaner & Jaipur/State Bank of Hyderabad/State Bank of Mysore/State Bank of Patiala/State Bank of Travancore or by using Visa/Master Credit/Debit Card.

N.B. 1 : Applicants who opt for **“Pay by Cash”** mode, should print the system generated Pay-in-slip during Part-II registration and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. **“Pay by Cash” mode option will be deactivated at 23.59 hours of 19-01-2014 i.e. one day before the closing date;** however, applicants who have generated their Pay-in-slip before it is de-activated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reason whatsoever, even if holding a valid Pay-in-Slip, will have no other offline option but to opt for online Debit/Credit Card or Internet Banking Payment mode **on the closing date i.e. till 23-59 hours of 20-01-2014.**

N.B. 2 : Candidates should note that payment of examination fee can be made only through the modes prescribed above. Payment of fee through any other mode is neither valid nor acceptable. Applications submitted without the prescribed fee/mode (unless remission of fee is claimed) shall be summarily rejected.

N.B. 3 : Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

N.B. 4 : For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank, they will be treated as fictitious payment cases and their applications will be rejected in the first instance. A list of all such applicants shall be made available on the Commission's website within two weeks after the last day of submission of online application. The applicants shall be required to submit the proof of their fee payment within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. On receipt of documentary proof, genuine fee payment cases will be considered and their applications will be revived, if they are otherwise eligible.

NOTE-1 : Candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and those specified in Note 2 below are not required to pay any fee. No fee exemption is, however, available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

NOTE-2 : The sons of serving/ex-Junior Commissioned Officers/Non-Commissioned Officers/Other Ranks of Army and equivalent ranks in the Indian Navy/Indian Air Force are also not required to pay the prescribed fee if they are studying in Military School (formerly known as King George's School)/Sainik School run by Sainik Schools Society.

[N.B. : A certificate of eligibility for fee exemption is required to be obtained by all such candidates from the Principals concerned individually and produced for verification at the time of SSB Test/Interview by the candidates who are declared qualified for the SSB Test/Interview.]

5. HOW TO APPLY :

Candidates are required to apply Online by using the website www.upsconline.nic.in Detailed instructions for filling up online applications are available on the above-mentioned website.

NOTE-1 : The applicants are advised to submit only single application; however if due to any unavoidable situation, if he submits another/multiple applications, then he must ensure that application with the higher RID is complete in all respects like applicants' details, examination centre, photograph, signature, fee etc. The applicants who are submitting multiple applications should note that only the applications with higher RID (Registration ID) shall be entertained by the Commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID.

NOTE-2 : All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy, Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehradun), Students of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should apply online direct to the Commission.

N.B. (a) Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises; (b) Candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy; and (c) Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools formerly known as King George's Schools and Sainik Schools run by Sainik Schools Society are required to inform their Head of Office/Department, Commanding Officer, Principals of College/School concerned, as the case may be, in writing that they have applied for this examination.

Candidates should note that in case a communication is received by the Commission from their employer/authority concerned withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

NOTE-3 : WHILE FILLING IN THE APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN HIS E-ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE-4 : APPLICATIONS WITHOUT THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT

ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTES/ SCHEDULED TRIBES/OTHER BACKWARD CLASSES AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEREFORE, ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFIL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 2014.

NOTE 5: CANDIDATES WHO HAVE PASSED WRITTEN TEST ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT THEIR ORIGINAL CERTIFICATE OF AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION EITHER TO DIRECTORATE GENERAL OF RECRUITING, ARMY HQ, WEST BLOCK-III, RK PURAM, NEW DELHI-110066 OR TO NAVAL HEADQUARTERS, DMPR, OI&R SECTION, 'C' WING, SENA BHAWAN, NEW DELHI-110011.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW. IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

6. LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS :

The Online Applications can be filled upto 20th January, 2014 till 11.59 PM after which the link will be disabled.

7. TRAVELLING ALLOWANCE :

Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of Commission i.e. Permanent or Short Service, shall be entitled for AC III Tier to and fro railway fare or bus fare including reservation cum sleeper charges within the Indian limits. Candidates who apply again for the same type of Commission will not be entitled to travelling allowance on any subsequent occasion.

8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEADQUARTERS :

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) The eligible candidates shall be issued an e-Admission Certificate three weeks before the commencement of the examination. The e-Admission Certificate will be made available in the UPSC website [www.upsc.gov.in] for being downloaded by candidates. No Admission Certificate will be sent by post. For downloading the e-Admission Certificate/e-Admit Card the candidate must have his vital parameters like RID & Date of Birth or Roll No. (if received) & date of birth or name, father's name & Date of Birth available with him.
- (ii) If a candidate does not receive his e-Admission Certificate or any other communication regarding his candidature for the examination one week before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over Phone Nos. 011-23385271/011-23381125/011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his e-Admission Certificate at least one week before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his e-Admission Certificate.
- (iii) No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of e-Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.
- (iv) If a candidate receives an e-Admission Certificate in respect of some other candidate on account of processing error, it should be notified to the Commission with a request to issue the correct e-Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an e-Admission Certificate issued in respect of another candidate.
- (v) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.
- (vi) Candidates should note that the name in the e-Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vii) Candidates must ensure that their e-mail IDs given in their online applications are valid and active.

IMPORTANT : All Communications to the Commission should invariably contain the following particulars.

1. Name and year of the examination.
2. Registration ID (RID).
3. Roll Number (if received).
4. Name of candidate (in full and in block letters).
5. Postal Address as given in the application.

N.B. (i) : Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. (ii) : If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his full name and roll number, it will be ignored and no action will be taken thereon. Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their applications for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address also to :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, A.G's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R. K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, OI&R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/23011282.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011, Phone No. 23010231 Extn. 7081.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

AFTER HAVING CLEARED THE WRITTEN EXAMINATION THE CANDIDATES SHOULD LOG ON TO THE FOLLOWING WEBSITES FOR THEIR SSB CENTRE & DATE OF INTERVIEW :-

www.joinindianarmy.nic.in
www.nausena-bharti.nic.in
www.careerairforce.nic.in

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview or visit website of respective service headquarters after 20 days from the announcement of written results as follows :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block-III, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473 or www.joinindianarmy.nic.in

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, O.I. & R. Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23010097/ Email : officer-navy@nic.in

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011, Phone No. 23010231 Extn. 7081/7082 or www.careerairforce.nic.in

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the months of September - October, 2014 or as suitable to Recruiting Directorate. For all queries regarding Merit list, joining instructions and any other relevant information regarding selection process, please visit our website www.joinindianarmy.nic.in

9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES :

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission at their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be assessed on Officers Potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and for Officers Potentiality. PABT applicable to candidates with Air Force as First choice would also be conducted for all SSB qualified candidates with one of the choice as Air Force subject to their eligibility and if they are so willing.

TWO-STAGE SELECTION PROCEDURE

Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards. All the candidates will be put to stage-one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the Original Certificates along with one photocopy each of : (i) Original Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there, will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or

other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy/Naval Academy and Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination as fixed by the Commission at their discretion and (ii) Officer Potentiality Test as fixed by the Services Selection Board at their discretion. Over and above candidates for the Air Force, and all the SSB qualified candidates as per their willingness, eligibility and preference for Air Force, should separately qualify the PABT.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in a single combined list on the basis of total marks secured by them in the Written Examination and the Services Selection Board Tests. The final allocation/selection for admission to the Army, Navy, Air Force of the National Defence Academy and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be made upto the number of vacancies available subject to eligibility, medical fitness and merit-cum-preference of the candidates. The candidates who are eligible to be admitted to multiple Services/Courses will be considered for allocation/selection with reference to their order or preferences and in the event of their final allocation/selection to one Service/Course, they will not be considered for admission to other remaining Services/Courses.

N. B. : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE :

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the 10 + 2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Indian Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

12. The details regarding (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

MALAY MUKHOPADHYAY
Dy. Secy.

APPENDIX-I

(The Scheme and Syllabus of Examination)

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

| Subject | Code | Duration | Maximum Marks |
|----------------------|------|----------|---------------|
| Mathematics | 01 | 2½ Hours | 300 |
| General | 02 | 2½ Hours | 600 |
| Ability Test | | | |
| Total | | | 900 |
| SSB Test/Interview : | | | 900 |

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART “B” OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

PAPER-I

MATHEMATICS

(Code No. 01)

(Maximum Marks-300)

1. ALGEBRA

Concept of a set, operations on sets, Venn diagrams. De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube roots of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its applications. Logarithms and their applications.

2. MATRICES AND DETERMINANTS :

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications-Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method.

3. TRIGONOMETRY :

Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angles. Inverse trigonometric functions. Applications-Height and distance, properties of triangles.

4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS :

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola, ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

5. DIFFERENTIAL CALCULUS :

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications.

Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

7. VECTOR ALGEBRA :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force and in geometrical problems.

8. STATISTICS AND PROBABILITY :

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

PAPER-II

GENERAL ABILITY TEST

(Code No. 02)

(Maximum Marks—600)

Part 'A'—ENGLISH

(Maximum Marks—200)

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE

(Maximum Marks—400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and Heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following :

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask,

Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightning Conductors, Safety Fuses.

Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations, Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbondioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches and Gun-Powder.

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells, Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of Human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence.

French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society. Concept of one World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and Volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and Industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE :

Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

Intelligence and Personality Test

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.

NOTE : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

Few of such commonly found defects/ailments are listed below :

- (a) Wax (Ears)
- (b) Deviated Nasal Septum
- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Sized Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocele

NOTE : Permanent body tattoos are only permitted on inner face of forearm i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand/ Permanent body tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection. Tribes with tattoo marks on the face or body as per their existing custom and traditions will be permitted on a case to case basis. Comdt Selection Centre will be competent auth for clearing such cases.

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury is sustained during the tests or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of Military duties.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under weight. The Candidate should not be over weight or obese.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable heights will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR ARMY/AIR FORCE

TABLE-I

| Height in Centimetres (Without shoes) | Weight in Kgs. | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 16-17 years | 17-18 years | 18-19 years |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 152 | 42.5 | 44.0 | 45.0 |
| 155 | 43.5 | 45.3 | 47.0 |
| 157 | 45.0 | 47.0 | 48.0 |
| 160 | 46.5 | 48.0 | 49.0 |
| 162 | 48.0 | 50.0 | 51.0 |
| 165 | 50.0 | 52.0 | 53.0 |
| 167 | 51.0 | 53.0 | 54.0 |
| 170 | 52.5 | 55.0 | 56.0 |
| 173 | 54.5 | 57.0 | 58.0 |
| 175 | 56.0 | 59.0 | 60.0 |
| 178 | 58.0 | 61.0 | 62.0 |
| 180 | 60.0 | 63.0 | 64.5 |
| 183 | 62.5 | 65.0 | 66.5 |

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY

TABLE-II

| Height in Centimetres (Without shoes) | Weight in Kgs. | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| | 16 years | 18 years | 20 years |
| 152 | 44 | 45 | 46 |
| 155 | 45 | 46 | 47 |
| 157 | 46 | 47 | 49 |
| 160 | 47 | 48 | 50 |
| 162 | 48 | 50 | 52 |
| 165 | 50 | 52 | 53 |
| 168 | 52 | 53 | 55 |
| 170 | 53 | 55 | 57 |
| 173 | 55 | 57 | 59 |
| 175 | 57 | 59 | 61 |
| 178 | 59 | 61 | 62 |
| 180 | 61 | 63 | 64 |
| 183 | 63 | 65 | 67 |

A \pm 10% (A \pm 6 Kg for Navy) departure from the average weight given in the Table I above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad build as well as individuals with thin build but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

| | Minimum | Maximum |
|----------------|------------|-------------|
| Leg Length | 99.00 cms. | 120.00 cms. |
| Thigh Length | — | 64.00 cms. |
| Sitting Height | 81.50 cms. | 96.00 cms. |

On account of lower age of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (minimum) and 1.0 cm. sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

- (d) Chest should be well developed. Fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum

range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

- (e) There should be no maldevelopment or impairment of function of the bones or joint.

Spinal Conditions

- (f) Past medical history of diseases or injury of the spine or sacro iliac joints, either with or without objective signs which have prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a cause for rejection for commissioning in IAF. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection. The following conditions detected radiologically during medical exam will disqualify a candidate for Air Force service :

- (i) Granulomatous disease of spine
- (ii) Arthritides/spondylosis
 - Rheumatoid arthritis and allied disorders
 - Ankylosing spondylitis
 - Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint disease
 - Non articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.)
 - Miscellaneous disorders including SLE, dermatomyositis, polymyositis, vasculitis.
- (iii) Spondylolisthesis/spondylolysis.
- (iv) Compression fracture of vertebrae.
- (v) Scheuerman's disease (Adolescent kyphosis)
- (vi) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.
- (vii) Unilateral/Bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
- (viii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method.
- (ix) Herniated nucleus pulposus.
- (x) Presence of schmorl's nodes at more than one level.
- (xi) Atlanto-occipital and atlantoaxial anomalies.
- (xii) Hemi vertebrae and/or incomplete block (fused) vertebrae at any level in cervical, dorsal or

lumbar spine and complete block (fused) vertebrae at more than one level in cervical or dorsal spine.

- (xiii) Unilateral Sacralisation or lumbarisation (Complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.
- (xiv) Any other abnormality if so considered by the specialist.
- (g) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.
- (h) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.
- (i) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Armed Forces :
 - (i) Granulomatous disease of spine.
 - (ii) Arthritides/spondylosis
 - (iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).
 - (iv) More than mild Kyphosis/Lordosis
 - (v) Spondylolisthesis/Spondylosis/Spondylolysis
 - (vi) Herniated nucleus pulposus.
 - (vii) Compression fracture of Vertebra.
 - (viii) Sacralisation Disease
 - (ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
 - (x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
 - (xi) Atlanto-occipital and atlanto-axial anomalies.
 - (xii) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral
 - (xiii) Spina bifida other than SV 1 and LV 5
 - (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.
- (j) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (k) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric hearing loss should not be greater

than 20 db in frequencies between 250 and 8000 Hz. There is no impediment of speech.

- (l) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.
- (m) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (n) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, a minimum of 6 months must have passed prior to final medical examination before commencement of the course.
- (o) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (p) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.
- (q) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (r) A candidate should be able to read in a distant vision chart 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be (CP-III) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity will be permanently rejected for all the Services. Candidates who have undergone Laser Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.

Vision standard for Naval candidates

| | |
|-----------------------------|----------|
| Uncorrected without glass | 6/6, 6/9 |
| Corrected with glass | 6/6, 6/6 |
| Limits of Myopia | -0.75 |
| Limits of Hypermetropia | +1.5 |
| Binocular vision | III |
| Limits of colour preception | I |

Visual Standards for Air Force

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force, Minimum distant vision 6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia. Colour vision CP-I Hypermetropia : +2.0 D Sph Manifest Myopia : Nil Retinoscopic Myopia : 0.5 in any Meridian permitted Astigmatism : + 0.75 D Cyl (within + 2.0 D.Max) Maddox Rod Test

- | | |
|-----------------|--|
| (i) at 6 meters | Exo-6 prism D Eso-6 prism D Hyper-1 prism D Hypo-1 prism D |
| (ii) at 33 cms | Exo-16 prism D Eso-6 prism D Hyper-1 prism D Hypo-1 prism D |

Hand held Stereoscope—All of BSV grades Convergence—Up to 10 cm Cover test for distant and near—Lateral divergence/convergence recovery rapid and complete Radial Keratotomy, Photo Refractive Keratotomy/laser in Situ, Keratomileusis (PRK/LASIK) surgeries for correction of refractive errors are not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.

Binocular vision must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth).

Candidates who have undergone LASIK surgery are not considered fit for permanent commission in flying branch in IAF.

- (s) USG abdomen examination will be carried out and any congenital structural anomaly or disease of the abdominal organs will be a cause for rejection in Armed Forces.
- (t) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.
- (u) Routine ECG for Air Force candidates must be within normal limits.
- (v) Physical conditioning : Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned routine :—
 - (a) Running 2.4 km in 15 minutes
 - (b) Skipping
 - (c) Pushups and sit ups (minimum 20 each)
 - (d) Chin ups (minimum 08)
 - (e) Rope climbing 3.4 metres.

APPENDIX-III

(BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect

of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.

2. The cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 400.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance upto Rs. 400.00 p.m. for the 1st and 2nd years, Rs. 400.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs. 400.00 p.m. for the further specialised training in Army/Navy/Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 1500/- per month and Rs. 2000/- per month if more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force would be eligible for the grant of financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune-411023.

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on their arrival there :—

- (a) Pocket allowance for five months Rs. 7500.00
at Rs. 1500.00 per month.

| | |
|---|--------------|
| (b) For items of clothing and equipment | Rs. 31300.00 |
| (c) Army Group Insurance Fund | Rs. 4250.00 |
| (d) Incidental Expenditure during 1st Semester | Rs. 5478.00 |
| Total | Rs. 48528.00 |

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidates in the event of financial aid being sanctioned to them :—

| | |
|---|--------------|
| (a) Pocket allowance for five months at Rs. 400.00 per month (Corresponding to Govt. Financial Assistance) | Rs. 2000.00 |
| (b) For items of clothing and equip- ment approximately | Rs. 13935.00 |

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy.

(1) **PARASHURAM BHAU PATWARDHAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre-commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship, will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) **KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Indian Naval Academy, Ezhimala where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) **ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the

two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) **UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) **KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—One merit scholarship of the value of Rs. 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the All India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a Cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) **BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE**—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application Forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) **ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parent's or guardian's income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

| State Government | Amount | Eligibility |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| (9) West Bengal | Low, Middle, High | (i) The cadet must be Indian Citizen and the cdt and/or his parent must be permanent resident of/or permanently domiciled in the State of West Bengal. |
| *Income | | |
| Initial Lump sum grant | 5000/-, 3750/-, 2500/- | |
| Scholarship per semester | 1800/-, 1350/-, 900/- | |
| *Table Income Group | | (ii) The Cadet is not in receipt of any other financial assistance/ grant from the Govt. of India and/or the State Government or any other authority |
| Low -up to Rs. 9000/- pm | | |
| Middle -Rs. 9001/- to Rs. 18000/- pm | | |
| High -Above 18000/- pm | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|---|
| | | excepting scholarship or stipend received on merit. | (18) Pilot Officer Gurmeet Singh Bedi Memorial Scholarship | Rs. 1,500/- (one time payment) | Best all round Air Force cadet at the time of Passing Out of VI term. |
| (10) Goa | Rs. 1000/- per month during the period of training (subject to a maximum of 24 months or duration of the course whichever is less) & one time outfit allowance of Rs. 12,000/- | (i) The income limit of the cadet's parent/guardian shall not exceed Rs. 15,000/- pm (Rs. 1,80,000/- per annum) (ii) The income limit of those belonging to SC/ST/OBC should not exceed Rs. 37,500/- per month (Rs. 4,50,000/- per annum). (iii) He should not be receiving financial assistance/scholarship/freeship from any other source. | (19) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parent's income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship. | | |
| (11) Nagaland | Rs. 1,00,000/- one time payment | Should be domicile of Nagaland State. | (20) TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parent's/guardian's monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival. | | |
| (12) Manipur | Rs. 1,00,000/- one time payment | Should be domicile of Manipur State. | (21) KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—The Government of Karnataka has awarded 18 Scholarships (Eighteen Scholarships) 9 in respect of course commencing from January and 9 in respect of course commencing from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480/- (Rupees Four Hundred and Eighty) each per annum. Four more scholarships (two per term) at the rate of Rs. 480/- per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/RIM College, Dehra Dun have been awarded. | | |
| (13) Arunachal Pradesh | Scholarship Rs. 1,000/- pm One time outfit Allowance Rs. 12,000/- | Should be domicile of Arunachal Pradesh State. | (22) ALBERT EKKA SCHOLARSHIP—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival. | | |
| (14) Gujarat | Scholarship Rs. 6,000/- per annum | To the ward of Serving/Ex-servicemen (incl Ex/Serving Officer) of Native/Domicile of Gujarat. | (23) FG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP—Gp Capt M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival. | | |
| (15) Uttarakhand | Pocket Money Rs. 250/- pm (for NDA Cadets) | Pocket money for NDA cadets of Uttarakhand domicile is paid to father/guardian of cadets (Ex-Servicemen/Widow) through respective Zila Sainik Kalyan Offices. | | | |
| (16) Punjab | Rs. 1,00,000/- (one time payment) | Should be domicile of Punjab State. | | | |
| (17) Fg Officer Anuj Nanchal Memorial Scholarship | Rs. 2,000/- (one time payment) | Second best all round Air Force Cadet of VI term. | | | |

(24) FINANCIAL ASSISTANCE TO WARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE

The wards of Maharashtrian ex-service officers/men who are undergoing training as Cadets at NDA/IMA/Air Force Academy and Naval Academy will be given pocket expenses prescribed by the Training Establishment at the following rates :

Ex-Officers : 50% of total pocket expenses for entire duration of training.

Ex-JCOs : 75% —do—

Ex-ORs : 100% —do—

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zila Sainik Welfare Office alongwith the certificates obtained from the academy, showing the rates of pocket money, based on which the amount will be remitted to the applicant's parents.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE-411 023.

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

TRAINING

6. The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B. Sc. (Computer)/B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

The selected candidates of the Naval Academy will be given preliminary training both academic and physical, for a period of 04 years at Indian Naval Academy, Ezhimala. The cadets of 10+2 Cadet Entry Scheme will be awarded a B. Tech Degree on successful completion of training.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy,

Dehra Dun, Naval Cadets to Indian Naval Academy, Ezhimala and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable of leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. The Naval cadets are selected for the Executive Branch of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given further training at Indian Naval Academy, Ezhimala for a period of one year on successful completion of which they are promoted to the rank of Sub Lieutenants.

10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional Commission in the rank of Flying Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(i) Fixed Stipend for Cadet Training

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs. 21,000/- p.m. (Rs. 15,600/- as pay in Pay Band plus Grade Pay of Rs. 5,400/-).

(ii) Pay

| (a) Rank | Pay Band (Rs.) |
|-------------------|---|
| Lt to Maj | 15,600—39,100/- (PB-3) |
| Lt Col to Maj Gen | 37,400—67,000/- (PB-4) |
| Lt Gen HAG Scale | 67,000/-(annual increment @3%)—79,000/- |
| HAG+ Scale* | 75,500/-(annual increment @3%)—80,000/- |

(*Admissible to 1/3rd of total strength of Lt Gens)

VCOAS/Army Cdr/Lt Gen (NFSG) 80,000/- (fixed)

COAS 90,000/- (fixed)

(b) In addition to pay, Grade Pay will also be given as under :—

| | |
|---------|--------------|
| Lt | Rs. 5,400/- |
| Capt | Rs. 6,100/- |
| Major | Rs. 6,600/- |
| Lt Col | Rs. 8,000/- |
| Col | Rs. 8,700/- |
| Brig | Rs. 8,900/- |
| Maj Gen | Rs. 10,000/- |

(c) A Fixed sum of Rs. 6,000/- p.m. is also payable as Military Service Pay (MSP) to the officers from the rank of Lt to Brig.

(iii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers possessing certain prescribed Qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- or 20,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 500/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 400/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 280/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 400/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card Rs. 280/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :—

- (a) Brig & above Rs. 10,500/-
- (b) Maj to Col Rs. 14,000/-
- (c) Capt Rs. 11,000/-
- (d) Lt Rs. 9,000/-

(iv) Allowances

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :

(a) Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 400/- p.m.

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Highly Active Field Area Allowance at the rate of Rs. 6,780/- to Rs. 8,400/- p.m., Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 4,200/- to Rs. 5,200/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 1,600/- to Rs. 2,000/- p.m.

(d) In addition to the Compensatory Field Areas Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. and above are entitled for High Altitude Allowance in the range of Rs. 1,060/- p.m. to Rs. 11,200/- p.m. depending upon rank of the officer and place of posting.

(e) Uniform allowance : Initial allowance for one time kit @ Rs. 14,000/- and Rs. 3,000/- for every three years.

(f) Transport allowance : Transport @ Rs. 3,200/- + DA thereon p.m. in A-1/A class Cities and Rs. 1,600/- + DA thereon p.m. at other places shall be admissible to officers. "In the case of allowances specific to Defence Forces, the

rates of these allowances have been further enhanced by 25% as Dearness Allowance has gone up by 50%".

12. (a) Army Group Insurance Fund is a compulsory contributory group scheme, which provides insurance cover for Rs. 8 Lac on payment of one time premium of Rs. 4250/- for 3 years paid in advance in lump sum by the cadets including Naval and Air Force Cadets of NDA from the date of joining for Pre-commission training till completion of training at NDA. In case of relegation, an additional premium of Rs. 770/- per relegated term will be paid immediately on occurrence. For those who are medically boarded out of NDA on account of Disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability i.e. Rs. 4 lac for 100 per cent disability which is proportionately reduced to Rs. 80,000 for 20 per cent disability. Cadets being boarded out with less than 20 per cent will be given an ex-gratia grant of Rs. 50,000/- and Rs. 1 lac for cadet invalidated out with less than 20 per cent disability during last year of training. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

(b) At IMA when in receipt of stipend, the Gentlemen Cadets are provided insurance cover of Rs. 40 lac wef 01 Apr 2011 as per main AGI scheme as applicable to regular officers. Those who are medically boarded out of IMA on account of disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability, i.e. Rs. 20 Lac for 100 per cent disability which is proportionately reduced to Rs. 4 lac for 20 per cent and an ex-gratia grant of Rs. 50,000/- for less than 20 per cent disability. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex-gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex-gratia.

13. PROMOTIONAL AVENUES :

| Sl. No. | Army | Navy | Air Force | Minimum Reckonable Commissioned Service required for Substantive Promotion |
|---------|------------|----------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (a) | Lieutenant | Sub Lieutenant | Flying Officer | On Commission |
| (b) | Captain | Lieutenant | Flight Lieutenant | 02 years |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| (c) | Major | Lt Commander | Squadron Leader | 06 years |
| (d) | Lieutenant Colonel | Commander | Wing Commander | 13 years |
| (e) | Colonel (Selection) | Captain (Selection) | Group Captain (Selection) | 15 years |
| (f) | Colonel (Time Scale) | Captain (Time Scale) | Group Captain (Time Scale) | 26 years |
| (g) | Brigadier | Commodore | Air Commodore | On Selection |
| (h) | Major General | Rear Admiral | Air Vice Marshal | On Selection |
| (i) | Lieutenant General | Vice Admiral | Air Marshal | On Selection |
| (j) | General | Admiral | Air Chief Marshal | On Selection |

14. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

15. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

MALAY MUKHOPADHYAY
Dy. Secy.

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

New Delhi-110003, the 2nd December 2013

No. A-4/15/2010—Director of Enforcement hereby appoints the following Inspectors of Central Excise and Customs as Enforcement Officers on deputation basis in the Directorate of Enforcement in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- for a period of three years w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders:—

| Sl. No. | Name | Date of joining |
|---------|----------------------|-----------------|
| 1. | Shri Rohitash Pandey | 07.10.2013 |
| 2. | Shri S. Srinivas Rao | 14.10.2013 |

M. G. ATTRI
Jt. Dir. (Admn.)

No. A-4/15/2010—Director of Enforcement hereby appoints the following Superintendents of Central Excise and Customs and Service Tax as Assistant Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement on deputation basis in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- for a period of three years w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders:—

| Sl. No. | Name | Date of joining |
|---------|------------------------|-----------------|
| 1. | Shri Binod Kumar Singh | 05.08.2013 |
| 2. | Shri J. X. Tarrance | 23.08.2013 |

M. G. ATTRI
Jt. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi, the 26th November 2013

No. D.I.15/2013-Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment as Deputy Director in Narcotics Control Bureau, New Delhi, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period of four years on deputation basis vide MHA Order No. I-12014/21/2012-NCB-II dated 05.11.2013, services of Shri B. R. Meena, 2I/C (IRLA-4450) of 38 Bn, CRPF, is placed at the disposal of Director General, Narcotics Control Bureau (NCB), West Block-1, Wing-V, R. K. Puram, New Delhi from 18.11.2013 (AN).

M. C. PANWAR
DIGP (Pers)

No. D.I.1/2013-Pers(MOs)—Consequent on her selection for inter force deputation from CRPF to Border Security Force for a period of three years vide MHA UO No. I-45024/10/2013-Pers-II dated 05.09.2013, Dr. (Mrs.) Meenu Dalia, Medical Officer, IRLA-9259 of 88 Bn relieved from CRPF wef 11.11.2013 (AN) and accordingly her service has been placed at the disposal of DG, BSF with effect from the same date i.e. 11.11.2013 (AN).

M. C. PANWAR
DIGP (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA

Bhubaneswar-1, the 4th December 2013

No. Admn.-I-IAD-Gr.'B'/1105—Consequent on her acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 624 dated 19.11.2013, the Accountant General has been pleased to allow Smt. Bandana Nanda, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from 19.11.2013 (FN) without prejudice to the claim of her seniors.

No pay fixation is admissible since she has got benefit under MACP Scheme 2009.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

Other term and condition of OOC 624 shall remain unchanged.

S. B. PATIL
Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL
& SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA**

Bhubaneswar, the 4th December 2013

No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.VIII/2684—In pursuance of OOC No. 979 dated 21.11.2013 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/(AO)/Vol.VIII/2485 dated 21.11.2013 the following Asstt. Audit Officers on promotion have assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates as indicated against them :—

| Sl. No. | Name | Date of taking over charge as Audit Officer |
|---------|----------------------|---|
| | (S/Shri) | |
| 1. | Ms. Snigdha Mahanti | 21.11.2013 FN |
| 2. | Dhiraj Debaraj Sahu | 21.11.2013 FN |
| 3. | Kapilash Pradhan | 21.11.2013 FN |
| 4. | Rajendra Kumar Das | 21.11.2013 FN |
| 5. | Pratap Keshari Burma | 21.11.2013 FN |
| 6. | Purusottam Subudhi | 22.11.2013 AN |
| 7. | Ram Narayan Ray | 21.11.2013 FN |

DEEPAK MOHANTY
Audit Officer/Admn.

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
DEFENCE SERVICES**

New Delhi-110001, the 6th December 2013

No. Admn./130/Gazette Notification/2013—The under-mentioned Assistant Audit Officers are promoted as Audit Officers until further orders from the date noted against each:—

| Sl. No. | Name | Office in which serving at present | Date from which promoted as Audit Officer |
|---------|---------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (S/Shri/Smt.) | | |
| 1. | D. Damodaran | DDA (OF), Avadi | 01.05.2012 |
| 2. | Biplab Dey | PDA (OF), Kolkata | 06.06.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------------------------|--------------------------|------------|
| | (S/Shri) | | |
| 3. | Som Prakash Mishra | DDA, DS, CC, Allahabad | 22.06.2012 |
| 4. | Shashi Bhushan Navin | DDA, DS, EC, Patna | 22.06.2012 |
| 5. | Samar Kant Mishra | DDA, DS, Dehradun | 02.07.2012 |
| 6. | Biplab Sarkar | AO (A), Kolkata | 17.07.2012 |
| 7. | Ghan Shyam | DDA, DS, CC, Allahabad | 02.07.2012 |
| 8. | Vijay Kumar Sangar | DGADS, New Delhi | 01.08.2012 |
| 9. | Shekhar Kumar Sharma | C&AG of India, New Delhi | 01.08.2012 |
| 10. | Santan Diniz | DDA, DS, Delhi Cantt. | 20.09.2012 |
| 11. | S. Kala | DGADS, New Delhi | 01.11.2012 |
| 12. | P. K. Aggarwal | DDA, DS, Dehradun | 01.11.2012 |
| 13. | P. Bhupendran | AO (N), Kochi | 03.12.2012 |
| 14. | Suchita Ramesh Balwani | PDA (N), Mumbai | 01.01.2013 |
| 15. | D. N. Rao | DDA (AF), Bangalore | 01.01.2013 |
| 16. | Shio Mangal | DDA, DS, EC, Patna | 01.01.2013 |
| 17. | R. C. Mathews | DDA, DS, Delhi Cantt. | 01.01.2013 |
| 18. | Susanta Sarkar | AO (A), Kolkata | 01.02.2013 |
| 19. | Ramphal | PDA (AF), New Delhi | 04.02.2013 |
| 20. | Vidya Lakshmi Narayan | DDA, DS, Delhi Cantt. | 01.02.2013 |
| 21. | Prasanta Kumar Das | AO (A), Kolkata | 01.03.2013 |
| 22. | Jagdish Rajan | PDA (AF), New Delhi | 28.03.2013 |

SACHIN KAPOOR
Dy. Dir. of Audit

No. Admn./130/Gazette Notification/2013—The under-mentioned directly recruited Assistant Audit Officers are

confirmed as Assistant Audit Officers until further orders from the date noted against each:—

| Sl. No. | Name (S/Shri/Smt.) | Office in which serving at present | Date from which confirmed as Asstt. Audit Officer |
|---------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Rahul Gaur | DA (N), New Delhi | 31.08.2011 |
| 2. | Ujjwal Bakshi | DDA, DS, EC, Patna | 31.08.2011 |
| 3. | Binod Kumar Gaure | PDA (OF), Kolkata | 31.08.2011 |
| 4. | Ashish Kumar Shukla | PDA (N), Mumbai | 31.08.2011 |
| 5. | Mahesh Kumar | PDA (N), Mumbai | 31.08.2011 |
| 6. | Pardeep Kumar | DGADS, New Delhi | 31.08.2011 |
| 7. | Parveen Kumar | DGADS, New Delhi | 31.08.2011 |
| 8. | Shiv Kumar Jha | DGADS, New Delhi | 31.08.2011 |
| 9. | Sharwan Kumar Thakur | DDA, DS, EC, Patna | 18.03.2012 |
| 10. | Debargha Bhattacharjee | PDA (OF), Kolkata | 18.03.2012 |
| 11. | Kailash Kumar Majhi | PDA (N), Mumbai | 18.03.2012 |
| 12. | Abhishek Singh Kushwaha | DGADS, New Delhi | 18.03.2012 |
| 13. | Raj Kamal | DDA (AF), Dehradun | 13.08.2012 |
| 14. | Vinay Pal | PDA (AF), New Delhi | 31.08.2012 |
| 15. | Rohit Kumar | DGADS, New Delhi | 01.09.2012 |
| 16. | Pravin Kumar | PDA (N), Mumbai | 27.09.2012 |
| 17. | Prince Kumar | PDA (N), Mumbai | 02.11.2012 |
| 18. | Manas Sarkar | PDA (OF), Kolkata | 10.11.2012 |
| 19. | Amar Guria | DA (N), New Delhi | 03.03.2013 |

SACHIN KAPOOR
Dy. Dir. of Audit

No. Admn./130/Gazette Notification/2013—The under-mentioned Sr. Auditors/PA/JHT are promoted as Assistant

Audit Officers until further orders from the date noted against each:—

| Sl. No. | Name (S/Shri/Smt.) | Office in which serving at present | Date from which promoted as Asstt. Audit Officer |
|---------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | E. S. Jacob | PDA, DS, Pune | 24.04.2012 |
| 2. | Manoj Kumar | DGADS, New Delhi | 01.11.2012 |
| 3. | Mohan Singh | PDA (AF), New Delhi | 01.11.2012 |
| 4. | Virender Kumar | DGADS, New Delhi | 01.11.2012 |
| 5. | Pradeep Kumar Bhardwaj | DDA, DS, Delhi Cantt. | 01.11.2012 |
| 6. | Vipul Sharma | DDA (OF), Kanpur | 01.11.2012 |
| 7. | Anil Kumar | DDA, DS, Meerut Cantt. | 06.11.2012 |
| 8. | Rajni Bala | DGADS, New Delhi | 09.04.2013 |
| 9. | Ossi Chauhan | DDA, DS, Delhi Cantt. | 09.04.2013 |
| 10. | Bhagwati Martolia | DDA, DS, Dehradun | 09.04.2013 |
| 11. | Sunil Lal | AO (A), Kolkata | 12.04.2013 |
| 12. | Shibu Hansda | DDA, DS, EC, Patna | 29.04.2013 |
| 13. | Raghubir Singh | DDA, DS, Dehradun | 01.05.2013 |
| 14. | Harsh Thapliyal | PDA, DS, Chandigarh | 09.05.2013 |
| 15. | R. K. Rajhuns | PDA (N), Mumbai | 13.05.2013 |
| 16. | Dilip Kumar | DDA, DS, EC, Patna | 13.05.2013 |

SACHIN KAPOOR
Dy. Dir. of Audit

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 14th November 2013

No. PD/9(4)/2013-R-IV/13074—President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the post in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders :—

| Sl. No. | Name | Appointed as | Pay Band (Rs.) | Date of Appointment (FN) |
|---------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Shri Amitkumar Raghavendra Singh | Technical Officer 'D' | 15,600— 39,100/- + 6,600/- (GP) | 14.10.2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 2. | Dr. M. Thoh | Scientific Officer 'D' | 15,600—39,100/- + 6,600/- (GP) | 16.09.2013 |
| SHAILAJA PRAKASAM Dy. Establishment Officer | | | | |

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 26th November 2013

No. 21/11(2)/2012-CCS/14640—The President is pleased to appoint Shri M. Raju, IAS (J&K : 2005) as Internal Financial Adviser (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/-) in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department, on deputation basis with effect from the forenoon of 30.10.2013 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

SWATI PANDEY
Dir (Cadre)

No. 21/11(2)/2012-CCS/14642—Consequent on her voluntary retirement, Smt. Pushppamma George, Senior Accounts Officer (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department ceased to be in Government Service w.e.f. 19.08.2013 (FN).

SWATI PANDEY
Dir (Cadre)

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 3rd December 2013

No. RRCAT/Admn/R-902/1859—The President of India is pleased to appoint the following Scientific/Technical Officers in a substantive capacity in the entry grade and with effect from forenoon of date as indicated against each in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

| Sl. No. | CC No. | Name | Current Desig. | Date of Confirmation |
|---------|--------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1789 | Shri Thondapu Sivananda Reddy | SO/D | 01.09.2011 |
| 2. | 1793 | Shri Debasis Sinhamahapatra | SO/C | 01.09.2011 |
| 3. | 1831 | Smt. Urmila Singh | SO/C | 01.09.2012 |
| 4. | 1832 | Kum. Ranjana Rathore | SO/C | 01.09.2012 |
| 5. | 1833 | Kum. Rinky Dhingra | SO/C | 01.09.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------|-----------------------------|------|------------|
| 6. | 1834 | Shri Vineet Kumar Dwivedi | SO/C | 01.09.2012 |
| 7. | 1835 | Shri Sudhir Kumar | SO/C | 01.09.2012 |
| 8. | 1836 | Shri Pankaj Kumar Kushwaha | SO/C | 01.09.2012 |
| 9. | 1839 | Shri Rajnish Kumar | SO/C | 01.09.2012 |
| 10. | 1840 | Shri Arvind Singh Padiyar | SO/C | 01.09.2012 |
| 11. | 1841 | Shri Arihant Kumar Jain | SO/C | 01.09.2012 |
| 12. | 1849 | Shri Vinod Kumar Maurya | SO/C | 03.10.2012 |
| 13. | 1854 | Dr. Ashish Kumar Khandelwal | SO/D | 23.09.2012 |
| 14. | 1887 | Dr. Suman Bagchi | SO/D | 01.11.2012 |
| 15. | 1889 | Shri Kiran Baraik | TO/C | 14.03.2013 |
| 16. | 1899 | Shri Dharendra Kumar Verma | SO/C | 20.04.2013 |
| 17. | 1910 | Shri Tirtha Mandal | SO/C | 01.08.2013 |
| 18. | 1911 | Shri Chandrasekhar Ghosh | SO/C | 01.08.2013 |
| 19. | 1912 | Shri Abhishek Chatterjee | SO/C | 01.08.2013 |
| 20. | 1913 | Kum. Sushmita Bhartiya | SO/C | 01.08.2013 |
| 21. | 1915 | Shri Mukesh Kumar Pal | SO/C | 01.08.2013 |
| 22. | 1916 | Shri Jitendra Singh | SO/C | 01.08.2013 |
| 23. | 1917 | Kum. Pooja Patheja | SO/C | 01.08.2013 |

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

New Delhi-110019, the 3rd December 2013

No. RoC/Delhi/560(5)/FET-2011/8312—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following

Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 229013 | M/s. Agilocity Private Limited |
| 2. | 010632 | M/s. Akhil Chit and Finance Private Limited |
| 3. | 231859 | M/s. Appspark Mobile India Private Limited |
| 4. | 113637 | M/s. Belle Momo Hotels and Restaurants Private Limited |
| 5. | 204887 | M/s. Brace Developers Private Limited |
| 6. | 204885 | M/s. Caladium Developers Private Limited |
| 7. | 233699 | M/s. D'Ambroggio Estates Private Limited |
| 8. | 053378 | M/s. Energy & Financial Services (India) Private Limited |
| 9. | 170039 | M/s. Fast Callnet Private Limited |
| 10. | 136937 | M/s. Govindam Apparels Private Limited |
| 11. | 233249 | M/s. Greenmirc Technologies Private Limited |
| 12. | 100946 | M/s. Han-Yin Tours Private Limited |
| 13. | 163543 | M/s. Info Assure Technologies Private Limited |
| 14. | 159149 | M/s. Japmeet Holidays Private Limited |
| 15. | 161851 | M/s. Kenrm Consultants Private Limited |
| 16. | 134521 | M/s. Kunjar Mercantile Private Limited |
| 17. | 210374 | M/s. Kvasir Realtech Private Limited |
| 18. | 201077 | M/s. Livelihood Equity Advisors Private Limited |
| 19. | 154055 | M/s. Olympus Infrastructure Private Limited |
| 20. | 200631 | M/s. PEEVEE Merchandising Private Limited |
| 21. | 168600 | M/s. Propguru Realtors Private Limited |
| 22. | 164105 | M/s. Qsquare Technologies Private Limited |
| 23. | 166267 | M/s. Quick Texfeb Private Limited |
| 24. | 075347 | M/s. Sampuran Computers Private Limited |
| 25. | 128820 | M/s. Smit India Private Limited |
| 26. | 197036 | M/s. Smooth Holidays Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|---|
| 27. | 210344 | M/s. Tirthapadaya Buildtech Private Limited |
| 28. | 141727 | M/s. Touchstone Images Private Limited |
| 29. | 153840 | M/s. Uday Media Private Limited |
| 30. | 135178 | M/s. Vado Enterprises Private Limited |
| 31. | 060082 | M/s. Wild Life Adventure Tour India Private Limited |

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

New Delhi-110019, the 3rd December 2013

No. RoC/Delhi/560(5)/FET-2011/8312—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1. | 037609 | M/s. Priya Agrico Chemicals Private Limited |
| 2. | 181121 | M/s. Jaidev Infrastructures Private Limited |
| 3. | 038436 | M/s. Speciality Consulting & Research Private Limited |
| 4. | 196421 | M/s. Goat Fresh Farms Private Limited |
| 5. | 209660 | M/s. Live Interactive Private Limited |
| 6. | 221229 | M/s. Streamarc Media and Broadcast Private Limited |

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

New Delhi-110019, the 3rd December 2013

No. RoC/Delhi/560(5)/FET-2011/8312—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following

Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1. | 204951 | M/s. Aakar Promoters Private Limited |
| 2. | 219874 | M/s. Advaita HR Consultants Private Limited |
| 3. | 186963 | M/s. Ashtang Arogyashala Private Limited |
| 4. | 228661 | M/s. Explore Securities Private Limited |
| 5. | 209099 | M/s. Gigante Developers Private Limited |
| 6. | 231253 | M/s. Kanishka Goods Carrier Private Limited |
| 7. | 217206 | M/s. Karma Infra Solutions Private Limited |
| 8. | 174683 | M/s. Royalepolo Spa and Resort Private Limited |
| 9. | 135941 | M/s. RS Newsprints and Publishers Private Limited |
| 10. | 096921 | M/s. Sands Sports and Leisure Private Limited |

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh-160019, the 22nd October 2013

No. RoC/560(3)/Suo Moto/3—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 005122 | M/s. Himachal Khand Udyog Private Limited |
| 2. | 020113 | M/s. Romex Machines Private Limited |
| 3. | 020186 | M/s. Satayam Shivam Agro Gold Limited |
| 4. | 020203 | M/s. Rubymine Chits Company Limited |
| 5. | 020210 | M/s. Green India Corporation Limited |
| 6. | 020414 | M/s. Himachal Oils and Fats Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------|--|
| 7. | 020480 | M/s. Multirelation Chits Company Private Limited |
| 8. | 020514 | M/s. Inka Marketing Private Limited |
| 9. | 020536 | M/s. Diggpal Financial Services Private Limited |
| 10. | 020537 | M/s. Golentiger Chits Private Limited |
| 11. | 020719 | M/s. Himvalley Builders Private Limited |
| 12. | 021085 | M/s. Moral Agrotech India Limited |
| 13. | 021125 | M/s. Bhaghat Agro Finvest Limited |
| 14. | 021176 | M/s. Durga Colonisers Private Limited |
| 15. | 021207 | M/s. Alpine Oversease Private Limited |
| 16. | 031364 | M/s. Ghar Power Private Limited |

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Himachal Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 29th November 2013

No. RoC/560(5)/FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 31651 | M/s. Ji Tel Communications Private Limited |
| 2. | 31655 | M/s. Bit-D Net Com Private Limited |
| 3. | 22287 | M/s. IS Gill Marketing Company Private Limited |
| 4. | 19271 | M/s. Starline Impex (India) Private Limited |
| 5. | 32455 | M/s. Welcome Households Private Limited |
| 6. | 25116 | M/s. Performance Consultants Private Limited |
| 7. | 30208 | M/s. Green Corporate Garden Limited |
| 8. | 10097 | M/s. Aarbee Electrical Private Limited |
| 9. | 32436 | M/s. Consort Computers Private Limited |
| 10. | 37509 | M/s. Finapp Investmart Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 11. | 31989 | M/s. Edutech Study Consulting Private Limited |
| 12. | 32532 | M/s. Anchit Energy Private Limited |
| 13. | 16149 | M/s. Samjas Overseas Investment Private Limited |
| 14. | 35217 | M/s. R. G. Holiday Adventures Private Limited |
| 15. | 33088 | M/s. Rubel Marketing Private Limited |
| 16. | 32996 | M/s. Nyrocam Impex Private Limited |
| 17. | 11795 | M/s. Doaba Air Trans Private Limited |
| 18. | 29845 | M/s. IAM Resorts Private Limited |
| 19. | 27617 | M/s. Ishaan Contractors Private Limited |

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab and Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 25th October 2013

No. RoC/Sec. 560(5)/2013/921—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15-12883 | M/s. Dipa Infra Project Private Limited |
| 2. | 15-12884 | M/s. Sai Infrahomes Private Limited |
| 3. | 15-12887 | M/s. Starfortune Marketing Private Limited |
| 4. | 15-12888 | M/s. Kalinga Insurance Products Private Limited |
| 5. | 15-12890 | M/s. Mama Engineers Private Limited |
| 6. | 15-12891 | M/s. Puja Multi Business Promotion & Solution Private Limited |
| 7. | 15-12892 | M/s. Jacob Exports Private Limited |
| 8. | 15-12899 | M/s. Sri Sai Contech Private Limited |
| 9. | 15-12905 | M/s. 3P Solutions (India) Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------|---|
| 10. | 15-12906 | M/s. Kalyani Rural Agro Products Private Limited |
| 11. | 15-12916 | M/s. Kansu Beverages Private Limited |
| 12. | 15-12917 | M/s. Kansu Entertainment Private Limited |
| 13. | 15-12918 | M/s. Kuanria Food Products Private Limited |
| 14. | 15-12923 | M/s. Argave Constructions Private Limited |
| 15. | 15-12715 | M/s. OSL Cargoways Private Limited |
| 16. | 15-09672 | M/s. Nextapart Media & Publishing Private Limited |
| 17. | 15-010098 | M/s. ACE Eduventures Private Limited |
| 18. | 15-15732 | M/s. Tawang Technologies Private Limited |

C. K. DAS
Asst. Registrar of Companies
Odisha

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 7th November 2013

No. RoC/Sec. 560(5)/2013/942—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15-12926 | M/s. Bless Tech Marketing Private Limited |
| 2. | 15-12928 | M/s. Sarvodaya Protection Systems Private Limited |
| 3. | 15-12931 | M/s. Embest Infosolution Private Limited |
| 4. | 15-12934 | M/s. Sribhum Infrastructure Private Limited |
| 5. | 15-12937 | M/s. Pound Food Private Limited |
| 6. | 15-12939 | M/s. Technophile Solutions Private Limited |
| 7. | 15-12942 | M/s. Apex Asset Management System Private Limited |
| 8. | 15-12946 | M/s. Amrutdhara Associates Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|--|
| 9. | 15-12953 | M/s. Omm Sairam Real Estate & Construction Private Limited |
| 10. | 15-12956 | M/s. Akshat Projects Private Limited |
| 11. | 15-12957 | M/s. AA Event & Entertainment Private Limited |
| 12. | 15-12958 | M/s. Shoolin Technologies Private Limited |
| 13. | 15-10828 | M/s. CN Power Solutions Private Limited |
| 14. | 15-13044 | M/s. Coastal Aggregate Private Limited |

C. K. DAS
Asst. Registrar of Companies
Odisha

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 25th November 2013

No. RoC/Sec. 560(3)/2013/1082—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15-09994 | M/s. Ankita Strips & Power Private Limited |
| 2. | 15-12055 | M/s. Akshyadhara Commercials Private Limited |
| 3. | 15-12197 | M/s. Paper Mint News & Media Private Limited |
| 4. | 15-13153 | M/s. People Securities Private Limited |
| 5. | 15-13155 | M/s. Vriza Consulting Private Limited |
| 6. | 15-13157 | M/s. Jaysai Krishna Buildcon Private Limited |
| 7. | 15-13161 | M/s. Arupama Properties Private Limited |
| 8. | 15-13163 | M/s. Superior Agricultural Products and Marketing Private Limited |
| 9. | 15-13166 | M/s. Hillside Infrastructure Private Limited |
| 10. | 15-13167 | M/s. Marang Buru Trading Private Limited |
| 11. | 15-13170 | M/s. Aries Infratech (India) Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|---|
| 12. | 15-13173 | M/s. Odysis Infra-Developers Private Limited |
| 13. | 15-13174 | M/s. Kedargouri Realestate & Construction Private Limited |
| 14. | 15-13176 | M/s. Essen Homes Private Limited |
| 15. | 15-13177 | M/s. Life Drops Foods & Beverages Private Limited |
| 16. | 15-13178 | M/s. Dhanlaxmi Solutions Private Limited |
| 17. | 15-13179 | M/s. Suchana Sampad Information Private Limited |
| 18. | 15-13181 | M/s. Om Pariwar Estates Private Limited |
| 19. | 15-13186 | M/s. Additech Info Solutions Private Limited |
| 20. | 15-13187 | M/s. Calypso Infratech Private Limited |
| 21. | 15-13188 | M/s. Dvena Infra and Realty Private Limited |
| 22. | 15-13391 | M/s. Blossoms Infra Developer Private Limited |
| 23. | 15-13394 | M/s. Unicus Solutions Private Limited |

C. K. DAS
Asst. Registrar of Companies
Odisha

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753014, the 27th November 2013

No. RoC/Sec. 560(5)/2013/1227—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15-13052 | M/s. ASP Realcon Private Limited |
| 2. | 15-13054 | M/s. Blue Cross Infrastructures Private Limited |
| 3. | 15-13058 | M/s. Nina IT and Hospitality Private Limited |
| 4. | 15-13060 | M/s. B. P. Nirmann Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|---|
| 5. | 15-13063 | M/s. Biowizard Services Private Limited |
| 6. | 15-13068 | M/s. Azzurian Infogen Private Limited |
| 7. | 15-13077 | M/s. Kalinga Tourism Private Limited |
| 8. | 15-13082 | M/s. United Golden Traders Private Limited |
| 9. | 15-13089 | M/s. Jyoti Prakash Builders Private Limited |
| 10. | 15-13094 | M/s. Green Orchid Infraproperty Private Limited |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|---|
| 11. | 15-13095 | M/s. Titan Agrarian Services Private Limited |
| 12. | 15-13096 | M/s. Techmo Services Private Limited |
| 13. | 15-13097 | M/s. Sarthak India Comtrade Limited |
| 14. | 15-13100 | M/s. Jyotee Vision International Limited |
| 15. | 15-03678 | M/s. Rollex Builders and Structural Private Limited |

C. K. DAS
Asst. Registrar of Companies
Odisha

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
www.dop.nic.in